



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 242] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 1977/आषाढ़ 24, 1899

No. 242] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 1977/ASADRA 24, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 15th July 1977

G.S R 485(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No 72-Customs, dated the 18th June, 1977, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts newsprint, falling under sub-heading (2) of Heading No. 48.01/21 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule

[No. 148/F. No. Bud(2)-Cus/77]

(1471)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1977

सा० का० नि० 485(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 72-सीमाशुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 48.01/21 के उपशीर्ष (2) के अन्तर्गत सम्मिलित न्यूज प्रिन्टों को, जब उनका आयात भारत में किया जाए, उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उस समस्त भाग से छूट देती है जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

[सं० 148/फा० सं० बजट (2)-सी० शु०/77]

G.S.R. 486(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 3 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts viscose filament yarn falling under Heading No. 51.01/03 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from—

- (a) the whole of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule; and
- (b) the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 3 of the said Finance Act.

[No. 149/F. No. Bud (2)-Cus/77]

सा० का० नि० 486(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का 11) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 51.01/03 के अन्तर्गत सम्मिलित विन्कोसी फिलामेंट (तन्तु सूत) को, जब उसका आयात भारत में किया जाए,—

- (क) उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उस समस्त भाग से छूट देती है जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ; और
- (ख) उक्त वित्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है।

[सं० 149/फा० सं० बजट (2)-सी० शु०/77]

G.S.R. 487(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the following amendment shall be made in notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 107-Customs, dated the 1st July, 1977, namely:—

In the Table annexed to the said notification, Serial No. 3 and the entry relating thereto shall be omitted.

[No. 150/F. No. Bud(2)-Cus/77]

सा० का० नि० 487(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निदेश करती है कि भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 107-सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977 में निम्न-लिखित संशोधन किए जाए, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 3 और उसमें सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[सं० 150 फा० सं० बजट (2)-मो० शु०/77]

G.S.R. 488(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under Heading No. 73.03/05 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the purposes specified in column (3) of the said Table from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table:

Provided that the proper officer is satisfied that the imported melting scrap of iron or steel, specified in column (2) of the said Table against S. No. 1, is in fact used for the purpose specified in the corresponding entry in column (3) thereof.

THE TABLE

S. No.	Description of goods	Purpose of import	Rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Melting scrap of iron or Steel	For use in the electric arc furnace.	NIL
2.	Waste and scrap metal, shot and angular grit (whether or not graded); wire pellets, iron or steel powders; sponge iron or steel.	For other uses	Thirty per cent <i>ad valorem</i>

[No. 151/F. No. Bud(2)-Cus/77]

सा० का० नि० 488(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 73 03 05 के अन्तर्गत सम्मिलित और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भालो को, जब उनका आयात भारत में उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है :

परन्तु यह तब जब समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में क्रम सं० 1 के सामने विनिर्दिष्ट आयातित लोहा या हस्पात के पिघलन अपशिष्ट का उपयोग वस्तुतः उस प्रयोजन के लिए किया जाता है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

सारणी

क्रम सं०	मान का वर्णन	आयात का प्रयोजन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	लोहा या इस्पात का पिचलन अपशिष्ट	वैद्युत आर्क भट्टी में उपयोग के लिए	शून्य
2.	रही और अपशिष्ट धातु, गोले और कोष्ठक ग्रिट (चाहे वर्गीकृत हो या न हो), तार के प्लेट, लोहा अथवा इस्पात का चूर्ण, स्पज लोहा अथवा इस्पात।	अन्य उपयोगों के लिए	शून्य का तीस प्रतिशत

[सं० 151 फा० सं० बजट (2)-सी० शु०/77]

G.S.R. 489(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No. 78-Customs, dated the 18th June, 1977, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods, specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under sub-heading No. (2) of Heading No. 73.15 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, for the purpose or purposes specified in column (3) of the said Table, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table

Provided that if the goods specified in column (2) against S. No. 1 of the said Table are imported for the manufacture of all or any of the articles specified in the corresponding entry in items (a) and (b) in column (3) thereof—

- (i) in respect of the said goods as are of a thickness of 16 BG or more, the importer or the manufacturer, as the case may be, binds himself, by the execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, to pay, on demand, in respect of such quantity of imported stainless steel plates, sheets and strips as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for such manufacture, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation;
- (ii) in respect of the said imported goods as are of a thickness of less than 16 BG, the manufacturer carries out the manufacturing operations in bond, as provided in Chapter IX of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and subject to such other conditions as may be specified by the Assistant Collector of Customs in this behalf;

Provided further that—

- (i) the articles so manufactured are sold to industrial units for their use, and
- (ii) payment for such articles is made by the concerned industrial unit by a crossed cheque drawn on the buyer's own Bank Account.

THE TABLE

S. No.	Description	Purpose of import	Rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Stainless steel plates, sheets and strips.	<p>(a) for the manufacture of capital goods, equipments or components for the following industries :—</p> <p>(i) Fertilisers;</p> <p>(ii) Drugs and Pharmaceuticals and intermediates;</p> <p>(iii) Petro-chemicals;</p> <p>(iv) Organic chemicals;</p> <p>(v) Industrial furnaces;</p> <p>(vi) Nuclear projects;</p> <p>(vii) Man-made fibres;</p> <p>(viii) Man-made filament yarns;</p> <p>(ix) Synthetic detergents; and</p> <p>(x) Dairy.</p> <p>(b) for the manufacture of the following equipments or components :—</p> <p>(i) Pressure vessels;</p> <p>(ii) Heat exchangers;</p> <p>(iii) Industrial screens;</p> <p>(iv) Industrial filters;</p> <p>(v) Centrifuges and industrial separators;</p> <p>(vi) Mixers;</p> <p>(vii) Reactors;</p> <p>(viii) Distillation columns;</p> <p>(ix) Dryers;</p> <p>(x) Metallic Drums for cone winding or perforated cones;</p> <p>(xi) Dying equipment for textile industry; and</p> <p>(xii) Tubes.</p> <p>(c) For other purposes.</p>	<p>Forty per cent <i>ad valorem</i></p> <p>Forty per cent <i>ad valorem</i></p> <p>Two hundred and twenty per cent <i>ad valorem</i></p>
2.	Stainless steel strips of a thickness of 30 BG or thinner.	For the manufacture of stainless steel safety razor blades, fountain pen nibs and watch straps.	One hundred and twenty per cent <i>ad valorem</i>

Explanation.—In this notification, "BG" means Birmingham Gauge which is used for measuring thickness.

सा० का० नि० 489 (अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 78—सीमा-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक सं० 73.15 के उपशीर्ष सं० (2) के अन्तर्गत सम्मिलित और इससे उपबाध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मालों को जब उनका आयात भारत में, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए किया जाए, उन पर उद्ग्रहणीय उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है :

परन्तु यह तब जब कि उक्त सारणी की मद सं० 1 के सामने स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट माल का आयात यदि उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में मद (क) और मद (ख) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सभी वस्तुओं या किसी वस्तु के विनिर्माण के लिए किया जाता है, तो—

- (i) उक्त ऐसे माल की बाबत जो मोटाई में 16 बि० गे० या अधिक है, यथास्थिति, आयातकर्ता या विनिर्माणकर्ता ऐसे प्ररूप और उतनी रकम के बन्धपत्र का निष्पादन करके जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह, मांग किए जाने पर, आयातित स्टेनलेस स्टील की प्लेटों, चादरो और पट्टियों की उस मात्रा की बाबत जिसके बारे में सहायक सीमाशुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं किया जाता कि उनका प्रयोग ऐसे विनिर्माण के लिए किया गया है, यहाँ की गई छूट के न दिए जाने की दशा में उस मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क तथा आयात के समय पहले ही संवत् शुल्क के अन्तर के समतुल्य रकम का, संदाय करेगा ;
- (ii) उक्त ऐसे आयातित माल की बाबत जो मोटाई में 16 बि० गे० से कम है, विनिर्माता सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अध्याय 9 में उपबन्धित बन्धपत्र पर विनिर्माण कार्यकलाप ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए करता है जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं ।

परन्तु यह और कि,—

- (i) इस प्रकार विनिर्मित वस्तुएं औद्योगिक एककों को उनके उपयोग के लिए विक्रय की जाती हैं ; और
- (ii) ऐसी वस्तुओं के लिए संदाय सम्बन्धित औद्योगिक एकक द्वारा क्रेता के अपने बैंक खाते के नाम से काटे गए क्रास बैंक द्वारा किया जाता है ।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	आयात का प्रयोजन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	स्टेनलेस स्टील की प्लेटें, चादरे और पट्टियां	(क) निम्नलिखित उद्योगों के लिए पूंजी मूल्य का चालीस मालों, उपस्करो 47 संघटकों के विनिर्माण के लिए— (i) उर्वरक; (ii) औषधियां और भेषजीय वस्तुएं तथा मध्यक; (iii) पेट्रो-रसायन; (iv) कार्बनीय रसायन; (v) औद्योगिक भट्टियां, (vi) न्यूक्लीयर परियोजनाएं, (vii) कृत्रिम फाइबर, (viii) कृत्रिम फिलामेंट सूत; (ix) संश्लिष्ट डिटेजेंट, और (x) डेयरी। (ख) निम्नलिखित उपस्करो या संघटकों के विनिर्माण के लिए— (i) दबाव वाले जलयान; (ii) ताप परिवर्तक; (iii) औद्योगिक स्क्रीन, (iv) औद्योगिक फिल्टर; (v) सेन्द्रीफ्यूज तथा औद्योगिक सेप्रेटर; (vi) मिक्सर, (vii) रिएक्टर; (viii) डिस्टिलेशन कालम; (ix) अपशोषक, (x) कोण हाइड्रिंग या छिद्रदार कोण के लिए धातुजीय ड्रम,	प्रतिशत

(1)

(2)

(3)

(4)

(Xi) वस्त्र उद्योग के लिए रंगाई
के उपस्कर ; तथा

(Xii) ट्यूब ।

(ग) अन्य प्रयोजनों के लिए

मूल्य का दो सौ
बीस प्रतिशत

2. स्टेनलेस स्टील की 30
बि० गे० मोटाई की
या उससे पतली पट्टियां

स्टेनलेस स्टील के सेफटी रेजर ब्लेडों,
फाउनटेन पेन की निबों और घड़ियों
के फीनों के विनिर्माण के लिए

मूल्य का एक सौ
बीस प्रतिशत

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना में, “बि० गे०” संक्षेप अक्षरों से अभिप्रेत है बिरमिंघम गेज,
जो मोटाई नापने के लिए प्रयोग में आता है ।

[सं० 152/फा० सं० बजट (2)-सी० शु०/77]

G.S.R. 490(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 84-Customs, dated the 18th June, 1977, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts watches and watch parts (including semi-knocked down packs and completely knocked down packs), falling under sub-heading No. (2) of Heading No. 91.01/11 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of fifty per cent *ad valorem*:

Provided that the proper officer is satisfied that watch parts, including semi-knocked down packs and completely knocked down packs, are imported for manufacture of watches in accordance with a production programme duly approved by the Ministry of Industrial Development and are in fact so used for such manufacture.

[No. 153/F. No. Bud(2)-Cus/77]

सा० का० नि० 490 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 84-सीमाशुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 91.01/11 के उपशीर्ष सं० (2) के अन्तर्गत सम्मिलित घड़ियों और घड़ियों के पाटों को (जिसमें पूरी तरह संयोजित पैक भी आते हैं), जब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक है :

परन्तु यह तब जब समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि घड़ियों के पाटों (पुर्जों), जिसमें पूरी तरह संयोजित पैक या अर्ध-संयोजित पैक भी आते हैं, का आयात औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार घड़ियों के विनिर्माण के लिए किया जाता है और उनका उपयोग ऐसे विनिर्माण में वस्तुतः किया जाता है ।

सं० 153/फा० सं० बजट (2)-सी० शु०/77

G S.R. 491(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 3 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts melting scrap of iron or steel, falling under Heading No. 73.03/05 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for use in electric arc furnace, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 3 of the second mentioned Act.

Provided that the proper officer is satisfied that the imported melting scrap of iron or steel is in fact used in electric arc furnace.

[No. 154/F. No. Bud(2)-Cus/77]

सां. कां. निं. 491 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का 11) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 73.03/05 के अन्तर्गत सम्मिलित लोहा या इस्पात के पिघलन अपशिष्ट को, जब उसका आयात भारत में वैद्युत आर्क भट्टी में उपयोग के लिए किया जाए, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उदग्रहणीय समस्त सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आयातित लोहा या इस्पात के पिघलन अपशिष्ट का उपयोग वस्तुतः वैद्युत आर्क भट्टी में किया जाता है।

[सं० 154/फा० सं० बजट (2)-सी० शु०/77]

G.S.R. 492(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of Section 3 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 123-Customs, dated the 1st July, 1977, namely :—

In the Schedule to the said notification—

(a) serial Nos. 140 and 141, and the entries relating thereto shall be omitted; and

(b) after serial No. 155 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

“156. No. 148-Customs, dated the 15th July 1977.

157. No. 152-Customs, dated the 15th July 1977.

158. No. 153-Customs, dated the 15th July 1977.”

[No. 155/F. No. Bud(2)-Cus/77]

सां. कां. निं. 492 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का 11) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 123-सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

(क) क्रम सं० 140 और 141 और उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा; और

(ख) क्रम सं० 155 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तः-स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“156. सं० 148-सीमाशुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977

157. सं० 152-सीमाशुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977

158. सं० 153-सीमाशुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977” ।

[सं० 155/फा० सं० बजट (2)-सी० शु०/77]

G.S.R. 493(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts lacquered sheets and varnished sheets, including cuttings of lacquered sheets and varnished sheets, falling under sub-item (2) of Item No. 28 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), when imported into India, from so much of the additional duty, which is leviable thereon under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of Rs. 325 per metric tonne.

[No. 158/F. No. Bud(2)-Cus/7]

JOSEPH DOMINIC, Under Sec

सा० फा० नि० 493 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 28 की उपमद (2) के अन्तर्गत सम्मिलित लेकर की हुई चादरों और वानिष की हुई चादरों को, जिसके अन्तर्गत लेकर की हुई चादरों और वानिष की हुई चादरों की कतरने भी आती है, जब उनका आयात भारत में किया जाए, उन पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के उतने भाग से छूट देती है, जितना 325 रुपये प्रति मीटरी टन से अधिक है ।

[सं० 158/फा० सं० बजट (2) सी० शु० 77]

जोसेफ डोमिनिक, अवसर सचिव ।

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 15th July 1977

G.S.R. 494(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts unpasteurised butter, falling under Item No. 1C of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon, if such unpasteurised butter is cleared by military dairy farms for supply to military hospitals or as rations for use by defence forces or both.

[No 215/77]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1977

सा० फा० नि० 494 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

श्रीर नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1ग के अन्तर्गत सम्मिलित अपास्चरीकृत मक्खन को उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, यदि ऐसे अपास्चरीकृत मक्खन की निकासी सैनिक डेयरी फार्मों द्वारा सैनिक अस्पतालों में प्रदाय के लिए अथवा रक्षा बलों द्वारा राशन के रूप में उपयोग के लिए, अथवा दोनों प्रयोजनों के लिए, की जाती है।

[सं० 215/77]

G.S.R. 495(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 115/77-Central Excises dated 18th June, 1977, the Central Government hereby exempts unpasteurised butter, falling under Item No. 1C of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and cleared for home consumption on or after the first day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, from the whole of the duty of excise leviable thereon, if an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of the Capital investment made from time to time on plant and machinery installed in the industrial unit in which the goods, under clearance, are manufactured, is not more than rupees ten lakhs :

Provided that the exemption contained in this notification shall apply only to such unpasteurised butter as may be cleared amongst the first clearances for home consumption of butter, whether pasteurised or not, by, or on behalf of, the manufacturer referred to in this notification, from one or more factories,—(i) upto an aggregate value not exceeding rupees two lakhs during a financial year subsequent to 1977-78; and

(ii) upto an aggregate value not exceeding rupees one lakh and forty thousand during the period commencing on 15th day of July, 1977 and ending on 31st day of March, 1978.

Explanation.—For the purposes of determining the value of any capital investment, only the face value of such investment at the time when such investment was made shall be taken into account.

[No. 216/77]

G. K. PILLAI, Under Secy.

सांका०नि० 495 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 115/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को अधिष्ठात करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1ग के अन्तर्गत सम्मिलित अपास्चरीकृत मक्खन को, और गृह उपभोग के लिए जिसकी निकासी किसी विनिर्माता द्वारा, या उसकी ओर से एक या अधिक कारखाने से, किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन या उसके पश्चात् की जाए, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, यदि ऐसे अधिकारी का, जो रैंक में सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर से कम न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे औद्योगिक एकक में, जिसमें निकासीगत माल का विनिर्माण हुआ है, स्थापित संयंत्र और भग्नीन मात्र पर समय-समय पर किया गया पूँजी विनिर्धान दस लाख रुपए से अधिक नहीं है :

परन्तु इस अधिसूचना में दी गई छूट, इस अधिसूचना में निर्दिष्ट विनिर्माता द्वारा, या उसकी ओर से, एक या अधिक कारखाने से, गृह उपभोग के लिए,—

- (i) वित्तीय वर्ष 1977-78 के पश्चात्वर्ती किसी वित्तीय वर्ष के दौरान दो लाख रुपए से अनधिक सकल मूल्य तक ; और

- (ii) 15 जुलाई, 1977 को प्रारंभ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान एक लाख चालीस हजार रुपये से अनधिक सकल मूल्य तक,

की मक्खन की, चाहे पास्चरीकृत हो या नहीं, प्रथम निकासियों में निकासी किए गए केवल ऐसे अपास्चरीकृत मक्खन को लागू होगी।

स्पष्टीकरण—पूँजी विनिधान के मूल्य को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे विनिधान के उस समय केवल अंकित मूल्य को गणना में लिया जाएगा जब ऐसा विनिधान किया गया था।

[सं० 216/77]

जी० के० पिल्ले, अवसर सचिव।

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 15th July 1977

G. S. R.—496(B).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 116/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, the Central Government hereby exempts aerated waters, falling under Item No. 11D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), manufactured by or on behalf of a manufacturer in one or more factories, from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that no power is used in any process of such manufacture or if power is used, it does not exceed one horse power for carbonation of water and half horse power for washing of bottles:

Provided further that the exemption shall be admissible to a manufacturer only in respect of the output of not more than two filling machines of which only one shall be suitable for closing the bottle with crown cork and the other shall be suitable for closing the bottle with glass marble.

Explanation I.—When more than one filling machine of either type described above are installed in a factory in which power is not used in any process of manufacture or is used to the extent and for the purposes specified above, the output of one machine of either type shall be determined for the purposes of this notification by dividing the total output of such aerated waters separately for each type of filling machines, by the number of such machines.

Explanation II.—For the purposes of this notification, filling machines shall include such machines as are capable of only carbonating bottles pre-filled with water.

[No. 217/77]

R. K. CHANDRA, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1977

सा०का०नि० 496 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना संख्या 216/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1978 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और

नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1घ के अन्तर्गत सम्मिलित वातित जलों को, जिनका विनिर्माण किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों में किया गया हो, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क में छूट देती है।

परन्तु यह तब जब ऐसे विनिर्माण की किसी प्रक्रिया में पावर का प्रयोग नहीं किया जाता है अथवा यदि पावर का प्रयोग किया जाता है तो वह जल के कार्बनिकरण के लिए एक अथवा अधिक शक्ति स और वातला की धुलाई के लिए आधे अथवा शक्ति में अधिक नहीं है।

परन्तु यह और कि यह छूट विनिर्माता को केवल अधिक से अधिक दो भराई मशीनों के उत्पादन की बाबत अनुज्ञेय होगी जिनमें से केवल एक बोतला को क्राउन ग्लास में बदलने के लिए उपयुक्त हो और दूसरी बातलों का ग्लास मार्बल से बदलने के लिए उपयुक्त हो।

स्पष्टीकरण I—जहाँ ऊपर वर्णित किसी प्रकार की मशीनों में से एक भराई मशीन ऐसे कारखानों में स्थापित की जाती है जिनमें विनिर्माण की किसी प्रक्रिया में पावर का प्रयोग नहीं किया जाता अथवा ऊपर विनिर्दिष्ट विस्तार तक और प्रयोजनों के लिए किया जाता है, वहाँ दाना प्रकार की मशीनों में से एक मशीन का उत्पादन, इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, भराई मशीना में स प्रत्येक प्रकार की मशीन के लिए पृथक् पृथक् ऐसे वातित जल के कुल उत्पादन की ऐसी मशीनों की संख्या में विभाजित करके अवधारित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण II—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए भराई मशीन के अन्तर्गत ऐसी मशीनें भी आती हैं जो पहले ही जल में भरी हुई बातलों के केवल कार्बनिकरण के योग्य हैं।

[सं० 217 77]

आर० के० चन्द्र, अवसर सचिव।

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 15th July 1977

G S R 497(E)—In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts pigments, colours, paints, enamels, varnishes, blacks, and cellulose lacquers, manufactured with the aid of power (hereinafter in this notification referred to as 'the said goods') and falling under Item No. 14 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).—

(a) up to an aggregate value not exceeding Rupees two lakhs, cleared for home consumption on or after the 1st day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer, from one or more factories, from the whole of the duty of excise leviable thereon if the total value of the said goods cleared, if any, for home consumption from one or more factories during the preceding financial year did not exceed Rs. fifteen lakhs, and

(b) up to an aggregate value not exceeding rupees one crore, cleared for home consumption on or after the 1st day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to two per cent *ad valorem*, if the total value of the said goods cleared, if any, for home consumption from one or more factories during the preceding financial year had exceeded rupees fifteen lakhs.

Provided that the said goods in either case are manufactured in an industrial unit in respect of which an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of capital investment made from time to time on plant and machinery only installed in the industrial unit in which the said goods, under clearance, are manufactured is not more than rupees ten lakhs:

Provided further that during the period commencing on the 15th day of July, 1977 and ending on the 31st day of March, 1978, the exemption contained in clause (a) or clause (b), as the case may be, shall apply only to the first clearances of the said goods for home consumption by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, up to an aggregate value not exceeding rupees one lakh and forty thousand or, as the case may be, rupees seventy lakhs.

Explanation I.—For the purposes of determining the value of any capital investment, only the face value of such investment at the time when such investment was made shall be taken into account.

Explanation II.—For the purposes of determining the value of clearances under this notification, the value of goods falling under Item No. 14 of the said First Schedule, on which duty is exempted under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 114/73—Central Excises, dated the 30th April, 1973, shall not be taken into account.

[No. 218/77]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1977

सांका०नि० 497 (अ) — केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14 के अन्तर्गत सम्मिलित वर्णक, रंग, पेट, एनेमल, वार्निश, कालिख और सेलूलोस लेकर (जिन्हें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उत्त माल" कहा गया है) को,—

(क) जिनका सकल मूल्य दो लाख रुपये से अनधिक तक है और जिनकी निकासी गृह उपभोग के लिए किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन या उसके पश्चात् किसी विनिर्माता द्वारा, या उसकी ओर से, एक या अधिक कारखाने से की जाती है, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एक या अधिक कारखाने से गृह उपभोग के लिए निकासी किए गए उक्त माल का, यदि कोई हो, कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपये से अधिक नहीं था; और

(ख) जिनका सकल मूल्य एक करोड़ रुपये से अनधिक तक है और जिनकी निकासी गृह उपभोग के लिए किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन या उसके पश्चात् किसी विनिर्माता द्वारा, या उसकी ओर से, एक या अधिक कारखाने से की जाती है, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के दो प्रतिशत के समतुल्य है, यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एक या अधिक कारखाने से गृह उपभोग के लिए निकासी किए गए उक्त माल का, यदि कोई हो, कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपये से अधिक था।

परन्तु यह तब जब उक्त कोई भी माल ऐसे औद्योगिक एकक में विनिर्मित किया जाता है जिसकी बाबत ऐसे अधिकारी का, जो रैक में सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर में कम न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे औद्योगिक एकक में, जिसमें निकासी गत उक्त माल का विनिर्माण किया गया है, संस्थापित केवल सयत्तों और मशीनों पर समय समय पर किए गए पूजी विनिधान के मूल्य की कुल राशि दस लाख रुपए से अधिक नहीं है :

परन्तु यह और कि 15 जुलाई, 1977 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान इस अधिसूचना के, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) में दी गई छूट उक्त माल की, गृह उपभोग के लिए, विनिर्माता द्वारा, या उसकी ओर से, एक या अधिक कारखाने से, यथास्थिति, एक लाख चालीस हजार रुपए से या सत्तर लाख रुपए से अनधिक सकल मूल्य तक की प्रथम निकासियों मात्र को लागू होगी ।

स्पष्टीकरण I.—किसी पूजी विनिधान के मूल्य को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे विनिधान के उस समय के अंकित मूल्य को गणना में लिया जाएगा जब ऐसा विनिधान किया गया था ।

स्पष्टीकरण II—इस अधिसूचना के अधीन निकासियों के मूल्य को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 14 के अन्तर्गत सम्मिलित उस माल का मूल्य गणना में नहीं लिया जाएगा जिस पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 114/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1973 द्वारा शुल्क से छूट दी गई है ।

[सं० 218/77]

G.S.R. 498 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts oil bound distemper, plastic emulsion paints, stiff paints, mixed paints and enamels, varnishes, bituminous and coal-tar blacks and cellulose lacquers falling under Item No. 14 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and cleared in packings, each containing less than five kilograms in respect of oil bound distemper and stiff paints, four litres in respect of plastic emulsion paints and ready-mixed paints and enamels, three litres in respect of varnishes and bituminous and coal-tar blacks and one litre or one kilogram in respect of cellulose lacquers depending upon whether they are sold on the basis of volume or weight, as the case may be, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty proportionately leviable thereon on the value of the said products contained in a five kilogram or four litre or three litre or one litre or one kilogram packing, as the case may be

[No. 219/77]

सां० कां० नि० 498.(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14 के अन्तर्गत सम्मिलित तेल डिस्टेंम्पर, प्लास्टिक इमेल्शन पेंट, स्टिफ पेंट, तैयार-मिश्रित पेंट और इनेमल, वार्निश, बिटुमिन और कोल-तार कालिख तथा सेलूलोस लेकर को, जब उनकी निकासी पैकिंगों में की जाए और जब तेल डिस्टेंम्पर तथा स्टिफ पेंट की बाबत प्रत्येक पैकिंग पांच किलोग्राम से, प्लास्टिक इमेल्शन पेंट तथा तैयार-मिश्रित पेंट और इनेमल की बाबत प्रत्येक पैकिंग चार लिटर से, वार्निश और बिटुमिन तथा कोल-तार कालिख की

बाबत प्रत्येक पैकिंग तीन लिटर से और सेलूलाम लेकर की बाबत पैकिंग की एक लिटर या एक किलोग्राम से, कम की हो, इस बात पर निर्भर करते हुए कि वे, यथास्थिति, आयातन या भार के आधार पर बिक्रय किए जाते हैं, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो पांच किलोग्राम या चार लिटर या तीन लिटर या एक लिटर अथवा एक किलोग्राम की पैकिंग में रखे गए उक्त उत्पाद के मूल्य पर उनपर अनुपाततः उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक है ।

[सं० 219/77]

G.S.R. 499 (E).—In exercise of the powers conferred under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts the goods mentioned in the Table below and falling under Item No. 14 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of ten per cent *ad valorem*.

TABLE

1. Metal primer red oxide.
2. Red oxide cum zinc chromate primer.
3. Zinc chromate primer.
4. Red lead primer.
5. Two pack etch primer.
6. P.V.B. (Polyvinyl butyral) based primers and finishes.
7. Epoxy based primers and finishes.
8. Zinc rich primers.
9. Epoxy bituminous finishes.
10. Styrene butadiene based finishes.
11. Chlorinated rubber based primers and finishes.

[N०. 220/77]

सा० का० नि० 499 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14 के अन्तर्गत वर्णित, नीचे सारणी में उल्लिखित मालों को, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक है ।

सारणी

1. मेटल प्राइमर रेड आक्साइड ।
2. रेड आक्साइड कम जिंक क्रोमेट प्राइमर ।
3. जिंक क्रोमेट प्राइमर ।
4. रेड लेड प्राइमर ।
5. टू पैक एच प्राइमर ।
6. पी० बी० बी० (पोलि बिनाइल बुट्रैल) बेस्ड प्राइमर और फिनिशेस ।
7. इपाक्सी बेस्ड प्राइमर और फिनिशेस ।
8. जिंक रिच प्राइमर ।
9. इपाक्सी बूटाडीन फिनिशेस ।
10. स्टीरीन बूटाडीन बेस्ड फिनिशेस ।
11. क्लोरीनेटेड रबर बेड प्राइमर और फिनिशेस ।

[सं० 220/77]

G.S.R. 500 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 116/74-Central Excises, dated the 27th July, 1974.

[No. 221/77]

सं० का० नि० 500(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 116/74-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 जुलाई, 1974 को विखण्डित करती है।

[सं० 221/77]

G.S.R. 501 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts polishes and creams and scouring powders and pastes falling under Item No. 15D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No. 222/77]

सं० का० नि० 501(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 15घ के अन्तर्गत सम्मिलित पालिशों और क्रीमों तथा मंजाई के पाउडरों और पेस्टों को, जिनमें या जिनके विनिर्माण में कोई भी प्रक्रिया सामान्यतया पावर की सहायता से नहीं की जाती है, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[सं० 222/77]

G.S.R. 502 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 123/77 -Central Excises dated 18th June, 1977, the Central Government hereby exempts polishes and creams and scouring powders and pastes falling under Item No. 15D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and cleared for home consumption on or after the 1st day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, from the whole of the duty of excise leviable thereon, if an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of the capital investment made from time to time on plant and machinery installed in the industrial unit in which the goods, under clearance, are manufactured, is not more than rupees ten lakhs :

Provided that the exemption contained in this notification shall apply only to the first clearances for home consumption by, or on behalf of, the manufacturer referred to in this notification, from one or more factories,—

- (i) upto an aggregate value not exceeding rupees five lakhs during a financial year subsequent to 1977-78 ; and
- (ii) upto an aggregate value not exceeding rupees three lakhs and fifty thousand during the period commencing on the 15th day of July, 1977 and ending on the 31st day of March, 1978.

Explanation.—For the purposes of determining the value of any capital investment, only the face value of such investment at the time when such investment was made shall be taken into account.

[No. 223/77]

G. K. PILLAI, Under Secy.

सा० का० नि० 502(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और वैकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 123/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 15घ के अन्तर्गत सम्मिलित पालिश और क्रीम तथा मांजने के पाउडर और पेस्ट को, और गृह उपभोग के लिए जिनकी निकासी किसी विनिर्माता द्वारा, या उसकी ओर से एक या अधिक कारखाने से, किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन या उसके पश्चात् की जाये, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, यदि ऐसे अधिकारी का, जो रिक में सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर से कम न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे औद्योगिक एकक में, जिसमें निकासीगत माल का विनिर्माण हुआ है, स्थापित संयंत्र और मशीन मात्र पर समय-समय पर किया गया पूंजी विनिधान दस लाख रुपये से अधिक नहीं है :

परन्तु इस अधिसूचना में दी गई छूट, इस अधिसूचना में निर्दिष्ट विनिर्माता द्वारा, या उसकी ओर से, एक या अधिक कारखाने से, गृह उपभोग के लिए—

- (i) वित्तीय वर्ष 1977-78 के पश्चात्पूर्ति किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पांच लाख रुपये से अनधिक सकल मूल्य तक; और
- (ii) 15 जुलाई, 1977 को प्रारम्भ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान तीन लाख पचास हजार रुपये से अनधिक सकल मूल्य तक, की केवल प्रथम निकासियों को लागू होगी।

स्पष्टीकरण.—पूँजी विनिधान के मूल्य को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए; ऐसे विनिधान के उस समय के केवल अंकित मूल्य को गणना में लिया जाएगा जब ऐसा विनिधान किया गया था।

[सं० 223/77]

जी० के० पिल्ले, अव्वर सचिव।

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 15th July 1977

G.S.R. 503 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 131/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, namely:—

In the said notification,—

- (a) in the proviso, clause (vii) shall be omitted;
- (b) in the Explanation, clause (ii) shall be omitted and clause (iii) shall be renumbered as clause (ii).

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1977

सा० का० नि० 503(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 131/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 18 जून, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

- (क) परन्तुक में से, खंड (vii) का लोप किया जाएगा;
- (ख) स्पष्टीकरण में से खंड (ii) का लोप किया जाएगा और खंड (iii) को खंड (ii) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा।

[सं० 224/77]

G.S.R. 504 (B).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 132/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977.

[No. 225/77]

सा० का० नि० 504(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 132/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को विखण्डित करती है।

[सं० 225/77]

G.S.R. 505(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of Section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 135/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, the Central Government hereby exempts cotton fabrics, falling under sub-item I of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and specified in column (2) of the Table hereto annexed (hereafter in this notification referred to as the "Table") from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) thereto.

THE TABLE

S. No.	Description	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
1.	Cotton fabrics in which the average count of yarn is 41s or more	fifteen per cent. <i>ad valorem</i> .

(1)	(2)	(3)
2. Cotton fabrics (other than those in which the average count of yarn is 41s or more),— whose value per square metre—		
(i) does not exceed four rupees	two per cent. <i>ad valorem.</i>
(ii) exceeds four rupees but does not exceed six rupees	.	three per cent <i>ad valorem.</i>
(iii) exceeds six rupees but does not exceed seven rupees	.	four per cent. <i>ad valorem.</i>
(iv) exceeds seven rupees but does not exceed eight rupees	.	six per cent <i>ad valorem.</i>
(v) exceeds eight rupees but does not exceed nine rupees	.	eight per cent. <i>ad valorem.</i>
(vi) exceeds nine rupees but does not exceed ten rupees	.	ten per cent. <i>ad valorem.</i>
(vii) exceeds ten rupees but does not exceed eleven rupees	.	twelve per cent. <i>ad valorem.</i>
(viii) exceeds eleven rupees but does not exceed twelve rupees	.	fourteen per cent. <i>ad valorem.</i>
(ix) exceeds twelve rupees	fifteen per cent. <i>ad valorem.</i>

Provided that—

- (i) in the case of handloom fabrics, when processed by an independent processor, the appropriate rate of duty as specified in the Table shall be reduced by sixty per cent. of such rate, subject to the condition that such reduction from such rate shall not exceed six per cent. *ad valorem.*
- (ii) when handloom fabrics are processed with the aid of power by factory owned by a registered handloom co-operative society or any organisation set up or approved by Government for the purpose of such processing, such fabrics shall be exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon both under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957);
- (iii) in the case of powerloom fabrics, when processed by an independent processor, the appropriate rate of duty as specified in the Table shall be reduced by thirty per cent. of such rate subject to the condition that such reduction from such rate shall not exceed three per cent. *ad valorem.*
- (iv) in the case of fabrics which answer to the description of 'Dhoti', 'Saree', 'Long cloth', 'Shirting' or 'Drill' as defined from time to time by the Textile Commissioner under the Cotton Textile (Control) Order, 1948 and for which maximum ex-factory prices have been specified by the Textile Commissioner under the said Order, the appropriate rate of duty as specified in the Table shall be reduced by fifty per cent. of such rate, subject to the condition that such fabrics are not supplied by the factory in which they are manufactured or processed to an industrial concern, and if such fabrics are so supplied, the purchasing industrial concerned certifies that the fabrics so purchased by it will be used exclusively for wearable purposes and not for any other purpose;
- (v) in the case of Drill as defined from time to time by the Textile Commissioner under the Cotton Textile (Control) Order, 1948, for which maximum ex-factory prices have not been specified by the Textile Commissioner under the said Order, the appropriate rate of duty as specified in the Table shall be reduced by fifty per cent of such rate;
- (vi) fabrics, on which duty has been paid at the appropriate rate, when subjected to finishing process or further finishing process or processes, shall be exempt from so much of the duty of excise leviable thereon as has already been paid on such fabrics;
- (vii) when such cotton fabrics, on which duty has been paid in terms of sub-rule (i) of rule 173-RD of the Central Excise Rules, 1944, are processed, the exemption shall, subject to the satisfaction of the proper officer, be allowed at such rate per rupee of the value of such cotton fabrics as may be determined by dividing "a" by "b", and for this purpose,

- (A) "a" shall stand for the amount of duty paid by the assessee, in the manner provided for in rule 173-RD, for the month in which such cotton fabrics were produced;
- (B) "b" shall stand for one-twelfth of the one hundred and fifty per cent. of the annual value determined under sub-rule (3) of rule 173-RA of the Central Excise Rules, 1944; and
- (C) "value" shall stand for the value of the cotton fabrics on the date on which such fabrics were removed for processing by the assessee discharging his duty liability under rule 173-RD,
- (viii) (a) the quantum of exemption referred to in clause (vii) shall not exceed the amount of duty paid in a month by the said assessee under rule 173-RD,
- (b) the receipts and clearances of such duty paid cotton fabrics shall be subject to such other terms, conditions and limitations as the Collector may specify in this behalf:

Provided further that in cases where cotton fabrics has been produced in a composite mill or are produced therein and in the production of such cotton fabrics cellulosic spun yarn falling under sub-item III(1) of Item No. 18 of the said First Schedule or cotton yarn falling under Item No. 18A(1) of the said First Schedule, or both, on which no duty of excise was paid prior to the 15th day of July, 1977, was or is issued, the duty payable on such fabrics shall be—

- (a) at the appropriate rate of duty as specified in this notification *plus*
- (b) the duty payable on such cellulosic spun yarn or cotton yarn or both, as the case may be, under the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 131/77 Central Excises, dated the 18th June, 1977.

Provided also that the amount of duty so levied shall be apportioned in the ratio of 80:20 between the duty leviable under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), respectively.

Explanation I.—For the purposes of this notification,—

- (a) "composite mill" means a manufacturer who is engaged in spinning of cotton yarn or weaving or processing of cotton fabrics with the aid of power and has a proprietary interest in at least two of such manufacturing activities;
- (b) "handloom fabrics" means cotton fabrics made from cotton yarn (other than hand spun cotton yarn) and woven on looms worked by manual labour;
- (c) "independent processor" means a manufacturer who is engaged exclusively in the processing of cloth with the aid of power and who has no proprietary interest in any factory engaged in the spinning of yarn or weaving of cotton fabrics

Explanation II—"count" means the count of grey yarn.

Explanation III.—For the purpose of determining the average count of yarn in the cotton fabrics, the following rules shall apply, namely:—

- (a) yarn used in the borders or selvages shall be ignored;
- (b) for multiple-fold yarn, the count of the basic single yarn shall be taken and the number of ends per 25.4 mm. in the reed or the number of picks per 25.4 mm, as the case may be, shall be multiplied by the number of plies in the yarn;
- (c) in the case of fabrics manufactured from cotton and other yarns, the other yarns shall, for the aforesaid purpose, be deemed to be cotton yarn;
- (d) the average count shall be obtained by applying the following formula, namely:—

$$(\text{Count of warp} \times \text{No. of ends per } 25.4 \text{ mm. in the reed}) + (\text{Count of weft} \times \text{No. of picks per } 25.4 \text{ mm.})$$

$$(\text{No. of ends per } 25.4 \text{ mm. in the reed} + \text{No. of picks per } 25.4 \text{ mm.})$$

the result being rounded off wherever necessary, by treating any fraction which is one half or more as one, and disregarding any fraction which is less than one half.

सां० का० नि० 505(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 135/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद (I) के अन्तर्गत सम्मिलित सूती फैब्रिकों को, जो इससे उपायुक्त सारणी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सारणी" कहा गया है) के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उन पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क
(1)	(2)	(3)
1.	सूती फैब्रिक जिनमें सूत का औसत काउंट 41\$ या अधिक है। मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत	
2.	सूती फैब्रिक (उनसे भिन्न जिनमें सूत का औसत काउंट 41\$ या अधिक है),—	
	जिनका मूल्य प्रति वर्गमीटर—	
	(i) चार रुपए से अधिक नहीं है	मूल्य का दो प्रतिशत
	(ii) चार रुपए से अधिक है किन्तु छह रुपए से अधिक नहीं है १	मूल्य का तीन प्रतिशत
	(iii) छह रुपए से अधिक है किन्तु सात रुपए से अधिक नहीं है।	मूल्य का चार प्रतिशत
	(iv) सात रुपए से अधिक है किन्तु आठ रुपए से अधिक नहीं है : ।	मूल्य का छह प्रतिशत
	(v) आठ रुपए से अधिक है किन्तु नौ रुपए से अधिक नहीं है।	मूल्य का आठ प्रतिशत
	(iv) नौ रुपए से अधिक है किन्तु दस रुपए से अधिक नहीं है।	मूल्य का दस प्रतिशत
	(vii) दस रुपए से अधिक है किन्तु ग्यारह रुपए से अधिक नहीं है।	मूल्य का बारह प्रतिशत
	(viii) ग्यारह रुपए से अधिक है किन्तु बारह रुपए से अधिक नहीं है।	मूल्य का चौदह प्रतिशत
	(ix) बारह रुपए से अधिक है।	मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत

परन्तु यह कि—

- (i) हथकरघा के फैब्रिकों की दशा में, जब उनका प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ता द्वारा किया जाता है, सारणी में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित दर ऐसी दर का साठ प्रतिशत इस शर्त के अधीन रहते हुए कम कर दी जाएगी कि ऐसी दर से ऐसी कटौती मूल्य के छह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; ■
- (ii) जहां हथकरघा फैब्रिक किसी रजिस्ट्रीकृत हथकरघा सहायरी सोसायटी के अथवा सरकार द्वारा ऐसे प्रसंस्करण के प्रयोजनार्थ स्थापित या अनुमोदित किसी संगठन के स्वामित्वाधीन कारखाने द्वारा पावर की सहायता से प्रसंस्कृत किया जाता है, वहां ऐसे फैब्रिकों को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट दी जाएगी;
- (iii) बिजलीकरघा के फैब्रिकों की दशा में, जहां ऐसे फैब्रिक स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रसंस्कृत किए जाते हैं, सारणी में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित दर ऐसी दर का तीस प्रतिशत इस शर्त के अधीन रहते हुए कम कर दी जाएगी कि ऐसी दर में ऐसी कटौती मूल्य का तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;
- (iv) ऐसे फैब्रिकों की दशा में, जो सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के अधीन वस्त्र आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा-परिभाषित 'घोटी', 'साड़ी', 'लांग क्लाथ (लट्ठा)', 'कमीज का कपडा' या 'ड्रल' के विवरण के अनुरूप है और जिनके लिए अधिकतम कारखाना-कीमते वस्त्र आयुक्त द्वारा उक्त आदेश के अधीन विनिर्दिष्ट की गई हैं, सारणी में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित दर, ऐसी दर का पचास प्रतिशत इस शर्त के अधीन रहते हुए कम कर दी जाएगी कि ऐसे फैब्रिकों की आपूर्ति उस कारखाने द्वारा, जिसमें उनके विनिर्माण या प्रसंस्करण हुआ है, किसी औद्योगिक संस्थान को नहीं की जाती है, और यदि ऐसे फैब्रिकों की इस प्रकार से आपूर्ति की जाती है तो क्रय करने वाला औद्योगिक संस्थान यह प्रमाणित करता है कि उसके द्वारा इस प्रकार क्रय किए गए फैब्रिकों का उपयोग केवल पहनने के प्रयोजन के लिए किया जाएगा, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं,
- (v) सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के अधीन वस्त्र आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथापरिभाषित ड्रल की दशा में, जिनका अधिकतम कारखाना-मूल्य वस्त्र आयुक्त द्वारा उक्त आदेश के अधीन विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, सारणी में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित दर ऐसी दर का पचास प्रतिशत कम कर दी जाएगी,
- (vi) ऐसे फैब्रिकों को, जिन पर शुल्क समुचित दर से सदत्त कर दिया गया है, तब जब उन पर समापन प्रक्रिया या अतिरिक्त समापन प्रक्रिया या प्रक्रियाएं की जाएं, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट होगी जितना ऐसे फैब्रिकों पर पहले ही संचित कर दिया गया है।
- (vii) जब ऐसे सूती फैब्रिक, जिन पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 173दश के उपनियम (1) के अनुसरण में शुल्क का संघाय किया जा चुका है, प्रसंस्कृत किए जाते हैं, छूट ऐसे सूती फैब्रिक के मूल्य के प्रति रुपए पर, समुचित

अधिकारी के समाधानप्रद रूप में, ऐसी वर से अनुज्ञात की जाएगी जो 'क' की 'ख' से विभाजित करके अवधारित की जाए, और इस प्रयोजन के लिए,—

- (क) 'क' में निर्धारित द्वारा उस मास में जिसमें ऐसे सूती फैब्रिक का उत्पादन किया गया था, नियम 173 दध में उपबन्धित रीति में संदत्त शुल्क की रकम आएगी;
- (ख) 'ख' केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 173 दध के उपनियम (3) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के एक सौ पचास प्रतिशत का बारहवां भाग आएगा; और
- (ग) 'मूल्य' में निर्धारित द्वारा नियम 173 दध के अधीन अपने शुल्क दायित्व का निर्वहन करते हुए, प्रसंस्करण के लिए ऐसे फैब्रिक को हटाने की तारीख को सूती फैब्रिक का मूल्य आएगा :

(viii) (क) खंड (vii) में निर्दिष्ट छूट की मात्रा उक्त निर्धारित द्वारा नियम 173 दध के अधीन किसी मास में संदत्त शुल्क की रकम से अधिक नहीं होगी;

(ख) ऐसे शुल्क संदत्त सूती फैब्रिक की प्राप्तियां और निकासियां ऐसी अन्य शर्तों, निर्बन्धनों और परिसीमाओं के अधीन होगी जो कलक्टर द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं।

परन्तु यह और कि उन दशाओं में जहां फैब्रिक का उत्पादन संयुक्त मिल में किया गया है या किया जाता है और ऐसे फैब्रिक के उत्पादन में, उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 18 की उपमद iii (i) के अन्तर्गत सम्मिलित सेलूलोसी कता हुआ सूत या उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 18-क (i) के अन्तर्गत सम्मिलित सूती सूत, अथवा दोनों, जिनपर 15 जुलाई, 1977 के पूर्व, उत्पाद-शुल्क संदत्त नहीं किया जाता था, प्रयोग में लाए गए थे, या लाए जाते हैं, वहां ऐसे फैब्रिकों पर शुल्क,—

- (क) इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित वर से संदेय होगा, तथा इसके अतिरिक्त
- (ख) भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 131/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 के अधीन, यथास्थिति, सेलूलोसी कते हुए सूत या सूती सूत या दोनों पर देय शुल्क भी संदेय होगा :

परन्तु यह और कि इस प्रकार उद्घूहीत शुल्क की रकम को क्रमशः केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उद्घूहणीय शुल्क के बीच 80:20 के अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1.—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) "संयुक्त मिल" से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो पावर की सहायता से सूती सूत की कताई में या सूती फैब्रिक की बुनाई या प्रसंस्करण में लगा हुआ है और जिसका कम से कम ऐसे दो विनिर्माण कार्यकलापों में साम्प्रतिक हित है;
- (ख) "हथकरघा फैब्रिक" से ऐसे सूती फैब्रिक अभिप्रेत हैं जो सूती सूत से (जो हाथ से कते सूती सूत से भिन्न हों) तैयार किए गए हों और शारीरिक श्रम से चलने वाले करवों पर बने हुए हों।

- (ग) "स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ता" से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो पावर की सहायता से वस्त्र के प्रसंस्करण में अनन्य रूप से लगा हुआ है और जिसका सूत की कसाई या सूती फैब्रिको की बुनाई में लग हुए किसी कारखाने में कोई साम्प्रतिक हित नहीं है।

स्पष्टीकरण 2.—"काउंट" से घूसर सूत का काउंट अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 3.—सूती फैब्रिक में सूत के औसत काउंट का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित नियम लागू होंगे, अर्थात् :—

- (क) बोर्डर में या छोरो में प्रयुक्त सूत गणना में नहीं लिया जाएगा;
- (ख) अनेक तार के सूत के लिए, आधारी एक तार के सूत का काउंट, लिया जाएगा और, यथास्थिति, रीड में प्रति 25.4 मिलीमीटर में सिरों की संख्या या प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों की संख्या को सूत में प्लाइयो की संख्या से गुणा कर दिया जाएगा,
- (ग) सूती या अन्य सूत से विनिर्मित फैब्रिक की दशा में, उपरोक्त प्रयोजन के लिए, अन्य सूत को भी सूती सूत समझा जाएगा;
- (घ) औसत काउंट निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार निकाला जाएगा, अर्थात् :—
(बार्थ के काउंट \times रीड में प्रति 25.4 मिलीमीटर में सिरों की सं०) +
(वेफ्ट के काउंट \times प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों की सं०)

(रीड में प्रति 25.4 मिलीमीटर में सिरों की सं० + प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों की सं०)

प्राप्त फल को, जहां आवश्यक हो, आधे या अधिक अंश को एक के रूप में मानते हुए और आधे से कम अंश को छोड़ते हुए, पूर्णांकित किया जाएगा।

[सं० 226/77]

G.S.R. 506(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise Goods of Special Importance Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No. 136/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977 namely :—

In the said notification,—

- (a) for the table, the following Table shall be substituted, namely :—

THE TABLE

S. No.	Description	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
A.	Fents and reys arising out of cotton fabrics in which the average count of yarn is 41s or more.	fifteen per cent. <i>ad valorem</i> .
1	Fents and reys arising out of cotton fabrics (other than those in which the average count of yarn is 41s or more),— Where the value of such cotton fabrics per square metre— (1) does not exceed four rupees,	two per cent. <i>ad valorem</i> .

(1)	(2)	(3)
(ii)	exceeds four rupees but does not exceed seven rupees .	three per cent. <i>ad valorem</i> .
(iii)	exceeds seven rupees but does not exceed nine rupees .	six per cent. <i>ad valorem</i> .
(iv)	exceeds nine rupees but does not exceed twelve rupees	ten per cent. <i>ad valorem</i> .
(v)	exceeds twelve rupees	fifteen per cent. <i>ad valorem</i> ."

(b) in the proviso, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(i) in the case of handloom fabrics, when processed by an independent processor the appropriate rate of duty as specified in the Table shall be reduced by sixty per cent. of such rate, subject to the condition that such reduction from such rate shall not exceed six per cent. *ad valorem*;

(ia) when handloom fabrics are processed with the aid of power by a factory owned by a registered handloom co-operative society or any organisation set up or approved by the Government for the purpose of such processing of such fabrics shall be exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon both under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957);

(ii) in the case of powerloom fabrics, when processed by an independent processor the appropriate rate of duty as specified in the Table shall be reduced by thirty per cent. of such rate, subject to the condition that such reduction from such rate shall not exceed three per cent. *ad valorem*."

(c) after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that in cases where cotton fabrics have been produced in a composite mill or are produced therein and in the production of such cotton fabrics cellulosic spun yarn falling under sub-item III(i) of Item No. 18 of the said First Schedule or cotton yarn falling under Item No. 18A(i) of the said First Schedule, or both on which no duty of excise was paid prior to the 15th day of July, 1977 was or is used, the duty payable on such fabrics and yarns arising out of such fabrics shall be—

(a) at the appropriate rate of duty as specified in this notification *plus*

(b) the duty payable on such cellulosic spun yarn or cotton yarn or both, as the case may be, under the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No 131/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977."

(d) in the existing second proviso, for the words "Provided further", the words "Provided also" shall be substituted;

(e) the existing Explanation shall be numbered as Explanation I and after Explanation I as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely :—

'Explanation II.—For the purpose of determining the average count of yarn in the cotton fabrics, the following rules shall apply, namely :—

(a) yarn used in the borders or selvages shall be ignored,

(b) for multiple-fold yarn, the count of the basic single yarn shall be taken and the number of ends per 25.4 mm. in the reed or the number of picks per 25.4 mm, as the case may be, shall be multiplied by the number of plies in the yarn ;

(c) in the case of fabrics manufactured from cotton and other yarns, the other yarns shall, for the aforesaid purpose, be deemed to be cotton yarn;

(d) the average count shall be obtained by applying the following formula, namely :—

$$\frac{(\text{Count of warp} \times \text{No. of ends per 25.4 mm. in the reed}) + (\text{Count of weft} \times \text{No. of picks per 25.4 mm.})}{\text{No. of ends per 25.4 mm. in the reed} + \text{No. of picks per 25.4 mm.}}$$

(No. of ends per 25.4 mm. in the reed + No. of picks per 25.4 mm)

the result being rounded off, wherever necessary, by treating any fraction which is one half or more as one, and disregarding any fraction which is less than one half."

सा०का०नि० 506 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के सात) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना संख्या 136/77 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, —

(क) सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

“ सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क
(1)	(2)	(3)
1.	ऐसे सूती फैब्रिक से, जिसमें सूत का औसत काउंट 41 या अधिक है, निकले टुकड़े और चिथड़े	मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत
2.	ऐसे सूती फैब्रिक से (उन से भिन्न जिसमें सूत का औसत काउंट 41 या अधिक (है) निकले टुकड़े और चिथड़े, —	
	जिनका मूल्य प्रति वर्ग मीटर—	
(i)	चार रुपए से अधिक नहीं है	मूल्य का दो प्रतिशत
(ii)	चार रुपए से अधिक है किन्तु सात रुपए से अधिक नहीं है।	मूल्य का तीन प्रतिशत
(iii)	सात रुपए से अधिक है किन्तु नौ रुपए से अधिक नहीं है।	मूल्य का छह प्रतिशत
(iv)	नौ रुपए से अधिक है किन्तु बारह रुपए से अधिक नहीं है।	मूल्य का दस प्रतिशत
(v)	बारह रुपए से अधिक है।	मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत।

(ख) परन्तुकमें, खण्ड (i) और खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

- (i) हथकरघा के फैब्रिकों की वशा में, जब उनका प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ता द्वारा किया जाता है, सारणी में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित दर ऐसी दर का साठ प्रतिशत इस शर्त के अधीन रहते हुए कम कर दी जाएगी कि ऐसी दर से ऐसी कटौती मूल्य के छह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(i) जहाँ हथकरघा फैब्रिक किसी रजिस्ट्रीकृत हथकरघा सहकारी सोसाइटी के अथवा सरकार द्वारा ऐसे प्रसस्करण के प्रयोजनार्थ स्थापित या अनुमोदित किसी संगठन के स्वामित्वाधीन कारखाने द्वारा पावर की सहायता से प्रसंस्कृत किया जाता है, वहाँ ऐसे फैब्रिकों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट दी जाएगी,

(ii) बिजलीकरघा के फैब्रिकों की दशा में, जहाँ ऐसे फैब्रिक स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रसंस्कृत किए जाते हैं, सारणी में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित दर ऐसी दर का तीस प्रतिशत इस शर्त के अधीन रहते हुए कम कर दी जाएगी कि ऐसी दर में ऐसी कटौती मूल्य का तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।”;

(ग) प्रथम परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

“परन्तु यह और कि उन दशाओं में जहाँ सूती फैब्रिक का उत्पादन संयुक्त मिल में किया गया है या किया जाता है और ऐसे सूती फैब्रिक के उत्पादन में, उक्त प्रथम अनुसूची की मद संख्या 18 की उपमद III (i) के अन्तर्गत सम्मिलित सैलूलोसी कता हुआ सूत या उक्त प्रथम अनुसूची की मद, सं 18—क (i) के अन्तर्गत सम्मिलित सूती सूत, अथवा दोनों, जिनपर 15 जुलाई, 1977 के पूर्व, उत्पाद शुल्क सदात्त नहीं किया जाता था, प्रयोग में लाए गए थे या लाए जाते हैं, वहाँ ऐसे फैब्रिकों से निकले, टुकड़ों और चिथड़ों पर शुल्क,

(क) इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित दर से सदेय होगा, तथा इसके अतिरिक्त

(ख) भारत सरकार के राजस्व और बैकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 131/77 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 18 जून 1977 के अधीन, यथास्थिति, सैलूलोसी कते हुए सूत या सूती सूत या दोनों पर देय शुल्क भी सदेय होगा।”;

(घ) विद्यमान द्वितीय परन्तुक में “परन्तु यह और” शब्दों के स्थान पर “परन्तु यह और भी” शब्द रखे जाएंगे;

(ङ) विद्यमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में सख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः सख्याकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकर 2.—सूती फैब्रिक में सूत के औसत काउन्ट का अवधारण करने के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित नियम लागू होंगे, अर्थात्:—

(क) बीर्डर में या छोरो में प्रयुक्त सूत गणना में नहीं लिया जाएगा;

(ख) अनेक तार के सूत के लिए, आधारी एक तार के सूत का काउन्ट लिया जाएगा और यथास्थिति, रीड में, प्रति 25.4 मिलीमीटर में सिरों की संख्या या प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों की संख्या को सूत में प्लाइयों की संख्या से गुणा कर दिया जाएगा।

- (ग) सूती या अन्य सूत से विनिर्मित फैब्रिक की दशा में, उपरोक्त प्रयोजन के लिए अन्य सूत को भी सूती सूत समझा जाएगा ;
- (घ) औसत काउन्ट निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार निकाला जाएगा, अर्थात् :—
- (धार्प के काउन्ट \times रीड में प्रति 25.4 मिलीमीटर में सिरों की सं०) \div
- (बेफेट के काउन्ट \times प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों की सं०)

(रीड में प्रति 25.4 मिलीमीटर में सिरों की सं० \div प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों की सं० प्राप्त फल को, जहाँ आवश्यक हो, आधे या अधिक अंश को एक के रूप में मानते हुए और आधे से कम अंश को छोड़ते हुए, पूर्णकृत किया जाएगा।”

[सं० 227/77]

G.S.R. 507(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of Section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts cotton fabrics, falling under sub-item I of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and produced in a composite mill, from so much of the duty of excise as is equivalent to the duty leviable with reference to that part of value which represents duty on yarn paid by a composite mill in accordance with the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 131/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977.

Explanation.—In this notification, ‘composite mill’ means a manufacturer who is engaged in spinning of cotton yarn or weaving or processing of cotton fabrics with the aid of power and has a proprietary interest in at least two of such manufacturing activities.

[No. 228/77]

सा०का०नि० 507 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद I के अन्तर्गत सम्मिलित सूती फैब्रिकों को जिनका उत्पादन संयुक्त मिल में हुआ हो, उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के उस भाग के प्रति निर्देश से उद्ग्रहणीय शुल्क के समतुल्य है जो, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 131/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 में के अनुसारण में, संयुक्त मिल द्वारा अपने मिल से ऐसे फैब्रिक के हटाए जाने के समय सूत पर संदत्त शुल्क के रूप में हो।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना में, “संयुक्त मिल” में ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो पावर की सहायता से सूती सूत की कटाई या सूती फैब्रिक की बुनाई या प्रसंस्करण में लगा हुआ है और जिसका कम से कम ऐसे दो विनिर्माण कार्यकलापों में साम्प्रतिक हित है।

[सं० 228/77]

G.S.R. 508(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 134/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977.

[No. 229/77]

सा० का० नि० 508 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 134/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 का विखण्डित करती है।

[सं० 229/77]

G.S.R. 509(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts unprocessed cotton fabrics falling under sub-item I of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), manufactured in factories commonly known as powerlooms (without spinning or processing plants), if for the installation and working of such powerlooms the written permission of the Textile Commissioner has been obtained, from the whole of the duty of excise leviable thereon under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944):

Provided that nothing in this notification shall apply to—

- (a) Cotton fabrics containing more than one-sixth by weight of fibre or yarn or both of non-cellulosic origin; and
- (b) Coating, suiting, tussors, corduroy, gaberdine, bed-ford satin, denim, lappet, butta fabrics, round mesh mosquito netting, lace, knitted fabric, tapestry, furnishing fabric including jacquard curtain cloth, gadapet, mattress fabric, terry towel including turkish towel, terry towelling cloth including turkish towelling cloth, blanket, canvas, duck, filter cloth, tracing cloth, and bukram cloth.

[No. 230/77]

सा० का० नि० 509 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद (1) के अन्तर्गत सम्मिलित अप्रसंस्कृत सूती फैब्रिक्सों को, जिनका विनिर्माण सामान्यतया पावरलूम (कटाई या प्रसंस्करण संयंत्र रहित) के नाम से ज्ञात कारखानों में किया जाता है, और वहाँ जहाँ ऐसे पावरलूमों के संस्थापन और कार्यकरण के लिए वस्तु आयुक्त से लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई हो, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु इस अधिसूचना की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी,—

- (क) ऐसे सूती फैब्रिक जिनमें असेलूलोसी मूल का फाइबर या सूत या दोनों का भार एक बटा छह से अधिक है ; और
- (ख) कोट का कपड़ा, सूट का कपड़ा, टस्सर, कार्डराय, गैबर्डिन, बीड-फोर्ड, साटिन; डेनिम, लेपित, बूटेदार फैब्रिक, गोल छेद वाली मच्छरदानी की जाली, लेस, बुना हुआ फैब्रिक, टेपेस्ट्री, फर्निशिंग फैब्रिक जिसमें जेकब परदे का कपड़ा भी आता है, गेडलपेट, गद्दों का फैब्रिक, टेरि तौलिए, जिनमें टर्किश तौलिए भी आते हैं, टेरि तौलिए का कपड़ा, जिसमें टर्किश तौलिए का कपड़ा भी आता है, कम्बल, केनवास, डक, फिल्टर कपड़ा, ट्रेसिंग कपड़ा और बुकरम।

[सं० 230/77]

G.S.R. 510(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts unprocessed cotton fabrics falling under sub-item 1 of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), manufactured in factories commonly known as powerlooms (without spinning or processing plants), from the whole of the duty of excise leviable thereon under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957).

Provided that nothing in this notification shall apply to—

- (a) Cotton fabrics containing more than one-sixth by weight of fibre of yarn of both of non-cellulosic origin; and
- (b) Coating, suiting, tussors, corduroy, gaberdine, bed-ford, satin, denim, lappet, butta fabrics, round mesh mosquito netting, lace, knitted fabric, tapestry, furnishing fabric including jacquard curtain cloth, gadlapet, mattress fabric, terry towel including turkish towel, terry towelling cloth including turkish towelling cloth blanket, canvas, duck, filter cloth, tracing cloth, and bukram cloth.

[No. 231/77]

सा० का० नि० 510(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मध्य सं० 19 की उपमद (1) के अन्तर्गत सम्मिलित अप्रसंस्कृत सूतीकैन्निकों को, जिनका विनिर्माण सामान्य तथा पावरलूम (कताई या प्रसंस्करण संयंत्र रहित) के नाम से ज्ञात कारखानों में किया जाता है; अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु इस अधिसूचना की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी,—

- (क) ऐसे सूती कैन्निक जिनमें असेलूलोसी मूल का फाइबर या सूत या दोनों का भार एक बटा छहसे अधिक है ; और
- (ख) कोट का कपड़ा, सूट का कपड़ा, टस्सर, काडंराय, गैबर्डिन, बैड-फोर्ड, साटन डेनिम, लेपिट, बूटेदार कैन्निक, गोल छेद वाली मच्छर-दानी की जाली, लेस, बुन हुआ कैन्निक, टेपेस्ट्री, फर्निशिंग कैन्निक, जिसमें जैकड परदे का कपड़ा भी आता है, गेडलेट, गद्दो का कैन्निक, टेरि तौलिए, जिनमें टर्किश तौलिए भी आते हैं, टेरि तौलिए का कपड़ा, जिसमें टर्किश तौलिए का कपड़ा भी आता है, कम्बल केनवास, डक, फिल्टर कपड़ा, ट्रेसिंग कपड़ा और बुकरम ।

[सं० 231/77]

G.S.R. 511(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Fifteenth Amendment) Rules, 1977.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Excise Rules, 1944, in Chapter V, after Section "E. II-Tea", the following shall be inserted, namely:—
"E-III. Cotton Fabrics produced on power-looms—Special Procedure—

96-I. *Application to avail of special procedure—*

- (1) Where a manufacturer who produces cotton fabrics, falling under sub-item I of Item No. 19 of the First Schedule to the Act, in factories commonly known as power-looms (without spinning or processing plants) for the installation and working of which the written permission of the Textile Commissioner has not been obtained, makes in the proper Form an application to the Collector in this behalf, the special provisions contained in this section shall, on such application being granted by the Collector, apply to such manufacturer in substitution of the provisions contained elsewhere than in this section, for the period in respect of which the application has been so granted.
- (2) Such application shall be made so as to cover a period of not less than twelve consecutive calendar months, but may be granted for a shorter period in the discretion of the Collector.
- (3) If at any time during such period the manufacturer fails to avail himself on the special provisions contained in this section, he shall, unless otherwise ordered by the Collector, be precluded from availing himself of such provisions for a period of six months from the date of such failure.
- (4) If the manufacturer desires to avail himself of the special provisions contained in this section on the expiry of the period for which his application was granted, he shall, before such expiry, make an application to the Collector under sub-rule (1) and on his failure to do so, he shall, unless otherwise ordered by the Collector, be precluded from availing himself of such provisions for a period of six months from the date of such expiry.

96-J *Discharge of liability for duty on payment of certain sum.—*

- (1) Having regard to the average production of cotton fabrics, falling under sub-item I of Item No. 19 of the First Schedule to the Act, in India per day for power-loom in factories commonly known as power-looms (without spinning or processing plants), for the installation and working of which the written permission of the Textile Commissioner has not been obtained and any other relevant factor, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, fix, from time to time, the rate per power-loom per quarter or part thereof and if a manufacturer whose application has been granted under rule 96-I pays in any month a sum calculated according to such rate, in the manner and subject to the conditions and limitations hereinafter laid down, such payment shall be a full discharge of his liability for the duty leviable on his production of unprocessed cotton fabrics, during the quarter or part thereof next following, as the case may be :

Provided that nothing in this rule shall apply to (a) cotton fabrics containing more than one-sixth by weight of fibre of yarn or both, of non-cellulosic origin; and (b) coating, suiting, tussors, corduroy, gaberdine, bed-ford, satin, denim, lappet, butta fabrics, round mesh mosquito netting, lace, knitted fabric, tapestry, furnishing fabric including jacquard curtain cloth, gadslapet, mattress fabric, terry towel including turkish towel, terry towelling cloth including turkish towelling cloth, blanket, canvas, duck, filter cloth, tracing cloth, and bukrum cloth:

Provided further that if there is an alteration in the rate of duty the sum payable shall be recalculated on the basis of the revised rate from the date of alteration and liability for duty leviable on the production of fabrics from that date shall not be discharged unless the differential duty is paid; should, however, the amount of duty so recalculated be less than the sum paid, the balance shall be refunded to the manufacturer.

Explanation —In this Section, "quarter" means the first, second, third or fourth quarter of a calendar year.

- (2) The sum payable under sub-rule (1) shall be calculated by application of such rate to the maximum number of power-looms installed by or on behalf of such manufacturer in one or more premises at any time during the three calendar months immediately preceding the calendar month in which the application under rule 97-K is made.
- (3) Such sum shall be tendered by such manufacturer along with such application.

96-K *Manufacturers' declaration and accounts.—*

- (1) Such manufacturer shall, at any time during the calendar month immediately preceding any quarter or part thereof as the case may be, in respect of which he has

been permitted to avail himself of the provisions of this section, make an application to the proper officer in the proper form for leave to remove cotton fabrics declaring therein the maximum number of power-looms installed by him or on his behalf in one or more premises at any time during the three calendar months immediately preceding the said calendar month.

- (2) If such application is not made to the proper officer within the time-limit laid down in sub-rule (1), the manufacturer shall, unless otherwise directed by the Collector, and in exceptional circumstances, be liable to pay duty on his entire production of cotton fabrics during the quarter or part thereof in respect of which the application was to be made, at the rate prescribed in First Schedule to the Act, read with any relevant notification or notifications issued under sub-rule (1) of rule 8.
- (3) Such manufacturer shall also intimate the proper officer in writing of any proposed change in the number of power-looms installed by him or on his behalf, and obtain the written approval of such officer before making any such change.

96-L Exemption from certain provisions : no rebate of excise duty on export—

- (1) During the period in respect of which any manufacturer has been permitted to avail himself of the provisions of this section, he shall be exempt from the operation of all the provisions of rule 9 (except the third proviso to sub-rule (1) thereof), 47, 48, 49, 50, 51, 51-A, 52, 52-A, 53, 54, 55, 223, 223-A, 224, 224-A and 229.
- (2) Except in accordance with such special terms, conditions, and limitations as the Central Board of Excise and Customs may hereafter by notification specify in this behalf, no rebate of excise duty shall be paid under rule 12 in respect of any fabrics exported out of India, out of the stock produced by such manufacturer during such period.

96-M Penalty for misdeclaration—

A manufacturer who is found to have made an incorrect declaration under sub-rule (1) of rule 96-K, or to have omitted to furnish or incorrectly furnished the information required by sub-rule (3) of that rule, shall be liable—

- (i) to pay the difference, if any, between the sum properly payable and the sum actually tendered by him, within ten days of a demand for such difference being served upon him by the proper officer;
- (ii) to confiscation of part of the whole of the stock of cotton fabrics lying in the premises of his licensed factory at the time the incorrectness of the declaration or the information or the omission to furnish the information is discovered; and
- (iii) to a penalty not exceeding two thousand rupees.

96-MM Provisions regarding new factories and closed factories resuming production—

In the case of a manufacturer who commences production for the first time or who recommences production after having ceased production for a continuous period of not less than three months, and who has been permitted by the Collector under sub-rule (1) of rule 96-I to avail of the special provisions contained in this section, the amount payable by him for the first quarter or part thereof as the case may be, shall be provisionally calculated on the basis of his declaration of the maximum number of power-looms that are or are likely to be installed by him or on his behalf during such period. At the expiry of the period, the amount payable shall be recalculated on the basis of the maximum number of powerlooms actually installed and if the initial payment falls short of the total liability so determined, the deficiency shall be recovered from the manufacturer. If, however, the total liability is less than the initial deposit, the balance shall be refunded to the manufacturer.

96-MMM Reckoning of roller locker machines—

Where roller locker machines are installed, either exclusively or in addition to any other type of power-loom, every metre of the width of such machine shall be reckoned as one power-loom and where the total width is in excess of whole metres, any fraction less than half a metre shall be ignored and any fraction of half a metre or more shall be increased to one whole metre.

96-MMMM Power to condone fault to apply for special procedure—

Notwithstanding anything contained in this section, the Collector may, at his discretion and subject to such conditions as he may lay down, apply the provisions contained in this section to a manufacturer who has failed to avail himself of the special procedure, or to comply with any condition, laid down in this section within the prescribed time limit.

96-MMMMM Provision regarding factories ceasing to work or reverting to the normal procedure—

Notwithstanding anything contained in rules 96-I to 96-MMMM, where a manufacturer who has availed himself of the special provisions contained in this section ceases to work or reverts to the normal procedure, the duty payable by him for the last three months during which he has availed himself of the special provisions shall be calculated on the basis of the maximum number of power-looms installed during the last three months in the manner prescribed in rule 96-MM and the amount already paid for such months in accordance with rule 96-J shall be adjusted towards the duty so calculated and on such adjustment if there is any excess payment it shall be refunded to the manufacturer and any deficiency in duty shall be recovered from the manufacturer.

Explanation.—A manufacturer, who ceases to work his factory for one or two shifts only, shall not be deemed to cease to work within the meaning of this rule."

[No. 232/77]

सा० का० नि० 511(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में, अध्याय 5 में, अनुभाग "ड II-चाय" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"ड 3. बिजली करवें पर उत्पादित सूती फैब्रिक—विशेष प्रक्रिया—]

96 स. विशेष प्रक्रिया के उपयोग लिए आवेदन.—(1) जहां कोई विनिर्माता जो सामान्यता बिजली करवा (कताई या प्रसंस्करण संयंत्र रहित) के नाम से ज्ञात कारखानों में, जिनके संस्थापन और कार्यकरण के लिए वस्तु आवृत्त की लिखित अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई है, ऐसे सूती फैब्रिक का, जो अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद १० ने 19 की उपमद 1 के अन्तर्गत सम्मिलित है, उत्पादन करता है, कलक्टर से उचित प्ररूप में इस निमित्त आवेदन करता है तो ऐसे विनिर्माता को, कलक्टर के ऐसा आवेदन मंजूर कर लेने पर, उन उपबन्धों के बदले जो इस अनुभाग से अन्यत्र दिए हुए हैं, वे विशेष उपबन्ध, जो इस अनुभाग में हैं, उतनी कालावधि के लिए लागू होंगे जितने के लिए वह आवेदन इस प्रकार मंजूर किया गया है।

(2) ऐसा आवेदन इस प्रकार किया जाएगा कि कम से कम बारह निरन्तर कलेंडर मास उसके अन्तर्गत आ जाएं किन्तु कलक्टर के विवेकानुसार वह लघुतर कालावधि के लिए मंजूर किया जा सकता है।

(3) यदि विनिर्माता इस अनुभाग के विशेष उपबन्धों का उपयोग ऐसी कालावधि के के दौरान किसी समय करने में असफल रहता है तो वह उस वशा के सिवाय जब कलक्टर अन्यथा आदेश दे, ऐसी असफलता की तारीख से छ. मास की कालावधि पर्यन्त उन उपबन्धों का उपयोग करने से प्रतिवारित रहेगा।

(4) यदि विनिर्माता उस कालावधि की समाप्ति पर जिस के लिए उसका आवेदन मंजूर किया गया था उस अनुभाग के विषय उपबन्धों का उपयोग करना चाहता है तो वह कलक्टर को उपनियम (1) के अधीन आवेदन ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व करेगा; और उसके ऐस

करने में असफल रहने पर वह उस दशा के सिवाय, जब कलक्टर अन्यथा आदेश दे ऐसी समाप्ति की तारीख से छः मास की कालाविधि के लिए ऐसे उपबन्धों का उपयोग करने से प्रतिवारित रहेगा।

96अ. कुछ राशि बेस पर शुल्क के दायित्व से उन्मोचन.—(1) भारत में सामान्यतः बिजली करघा (कताई या प्रसंस्करण संयंत्रों रहित) के नाम से ज्ञात कारखानों में, जिनके संस्थापन और कार्यकरण के लिए वस्त्र आयुक्त की लिखित अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई है, ऐसे सूती फैब्रिक का, जो अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 19 की उपमद 1 के अन्तर्गत आते हैं, प्रति बिजली करघों के प्रतिदिन के औसत उत्पादन की ओर किसी अन्य सुसंगत बात को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार प्रति बिजली करघा की प्रति त्रैमास या उसके भाग की दर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर, नियत कर सकती है और यदि वह विनिर्माता जिसका आवेदन नियम 96अ के अधीन मजूर किया गया है, इसके पश्चात् अधिकृत रंति से और शर्तों तथा परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, किसी मास में ऐसी दर से परिकलित राशि का संदाय करता है तो ऐसा संदाय ठीक अगले त्रैमास या उसके भाग के दौरान ऐसे अप्रसंस्कृत सूती फैब्रिक के उसके उत्पादन पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उसके दायित्व से उसका पूर्ण उन्मोचन होगा :

परन्तु इस नियम की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी, अर्थात् :—

(क) ऐसे सूती फैब्रिक जिनमें असेलूलोसी मूल का फाइबर या सूत या दोनों का भार एक बटा छह से अधिक है ; और

(ख) कोट का कपड़ा, सूट का कपड़ा, टस्सर, कार्डराय, गेबडीन, बेड-कोर्ड, साटिन डेनिम, लेपिट, बूटेदार फैब्रिक, गोल छेद वाली मच्छर दानी की जाली, लेस; बुना हुआ फैब्रिक, टेपस्ट्री, फर्निशिंग फैब्रिक, जिसमें जेकड पदों का कपड़ा भी आता है, गुडलपेट, गद्दों का फैब्रिक, टैरि तोलिए जिनमें टर्किश तोलिए भी आते हैं, टैरि तोलिए का कपड़ा जिसमें टर्किश तोलिए का कपड़ा भी आता है, कम्बल केनबास, डक, फिल्टर कपड़ा, ट्रेसिंग कपड़ा और बुकरम :

परन्तु यदि शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन हो तो वेय राशि पुनर्रक्षित दरों के आधार पर परिवर्तन की तारीख से पुनः परिकलित की जाएगी और जब तक अन्तर चुकान दिया जाए तब तक फैब्रिक के उत्पादन पर उस तारीख से उद्ग्रहणीय शुल्क के दायित्व के उन्मोचन नहीं होगा किन्तु यदि ऐसे पुनः परिकलित शुल्क की रकम सबत्त राशि से कम है तो अतिशेष विनिर्माता को वापस कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण.—इस अनुभाग में त्रैमास से कलेंडर वर्ष का प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ त्रैमास अभिप्रेत है।

(2) उपनियम (1) के अधीन देय राशि का परिकलन ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक परिमर में लगाए गए ऐसे अधिकतम बिजली करघों पर, जो नियम 96अ के अधीन आवेदन किए जाने वाले माल के ठीक पूर्व के कलेंडर त्रैमास के दौरान किसी समय रहे हों; ऐसी दर लगाकर किया जाएगा।

(3) ऐसी राशि ऐसे विनिर्माता द्वारा ऐसे आवेदन के साथ निविदित की जाएगी।

96ट. विनिर्माता की घोषणा और उसका लेखा.—(1) —ऐसा विनिर्माता, जिसे त्रैमास या उसके भाग के सम्बन्ध में इस अनुभाग के उपबन्धों का उपयोग करने की अनुज्ञा दी गई हो; उसके ठीक पूर्व के कलेंडर मास के दौरान किसी समय अपने अनुज्ञप्त परिसर से सूती फैब्रिक हटाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन उचित अधिकारी को उचित प्ररूप में करेगा और उसमें वह यह घोषणा करेगा कि उक्त कलेंडर मास के ठीक पूर्व के कलेंडर त्रैमास के दौरान किसी समय एक या अधिक परिसरों से उसके द्वारा या उसकी ओर से अधिकतम कितने बिजली करषे स्थापित किए हुए थे।

(2) यदि उचित अधिकारी को ऐसा आवेदन उपनियम (1) में अधिकथित समय के भीतर नहीं किया जाता तो, उस दशा के सिवाय जब कलक्टर अन्यथा निदेश दे, और असाधारण परिस्थितियों में, विनिर्माता उस त्रैमास या उसके भाग के, जिसके सम्बन्ध में आवेदन किया जाना था, सूती फैब्रिक के अपने पूरे उत्पादन पर शुल्क का उस पूरी दर से देनदार होगा जो, नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई किसी या किन्हीं अधिसूचनाओं के साथ पठित, अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विहित है।

(3) ऐसा विनिर्माता उचित अधिकारी को अपने द्वारा या अपनी ओर से लगाए गए बिजली करषों की संख्या में प्रस्थापित तबदीली की सूचना लिखित रूप में देगा, और ऐसी कोई तबदीली करने से पहले ऐसे अधिकारी का लिखित अनुमोदन प्राप्त करेगा।

96ठ. कुछ उपबन्धों से छूट: निर्यात पर उत्पाद-शुल्क को मोक का न होना.—(1) उस कालावधि के दौरान जिसके सम्बन्ध में किसी विनिर्माता को इस अनुभाग के उपबन्धों का उपयोग करने की अनुज्ञा दी गई है, उसे नियम 9 (उसके उपनियम (1) के तृतीय परन्तुक के सिवाय) 47, 48, 49, 50, 51, 51क, 52, 52क, 53, 54, 55, 223, 223क, 224; 224क और 229 के सब उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट प्राप्त होगी।

(2) ऐसे विनिर्माता द्वारा ऐसी कालावधि के दौरान उत्पादित स्टॉक में से जो फैब्रिक भारत से बाहर निर्यात किये गये हो उन पर, नियम 12 के अधीन उत्पाद-शुल्क का कोई मोक; ऐसे विशेष निबन्धों, शर्तों और परिसीमाओं के अनुसार ही, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड एतत्पश्चात् अधिसूचना द्वारा इसे निमित्त विनिर्दिष्ट करे, दिया जाएगा अन्यथा नहीं।

96डू गलत घोषणा के लिए शास्ति.—जिस विनिर्माता के बारे में यह पाया जाता है कि उसने नियम 96 ट के उपनियम (1) के अधीन गलत घोषणा की है, या उसने उस नियम के उपनियम (3) में अवैधित जानकारी नहीं दी है या गलत दी है तो—

- (i) व उसके द्वारा वस्तुतः निविधत राशि और वस्तुतः देय राशि के बीच के अन्तरकी राशि, यदि कोई हो, उचित अधिकारी द्वारा ऐसी राशि की मांग की ताममोल उस पर किए जाने के दस दिन के भीतर संदत्त करने का वायी होगा ;
- (ii) घोषणा या जानकारी का गलत होना या ऐसी जानकारी देने में चूक के प्रकट होने के समय, उसके अनुज्ञप्त कारखाने के परिसरों में सूती फैब्रिक का जो स्टॉक हो वह समस्त या उसका भाग जब्त किए जाने के दायित्वाधीन होगा ; और
- (iii) वह दस हजार रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा।

96डड नए कारखानों और उत्पादन पुनरारम्भ करने वाले बन्द कारखानों के बारे में उपबन्ध.—उस विनिर्माता के सम्बन्ध में जो विनिर्माण पहली बार आरम्भ करता है या जो तीन से अत्यन्त निरन्तर माम पर्यन्त विनिर्माण बन्द रखने के बाद उसे पुनः आरम्भ करता है, और जिसे कलेक्टर ने नियम 96अ के उपनियम (1) के अधीन इस अनुभाग में दी गई विशेष प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुज्ञा दी है, उसके द्वारा यथास्थिति, प्रथम त्रैमास या उसके भाग के लिए सवेय रकम का अन्तिम परिकलन उसके द्वारा या उसकी ओर से उस अवधि के दौरान संस्थापित या संस्थापित किये जाने के लिए आशयित बिजली करघों की घोषित अधिकतम संख्या के आधार पर किया जाएगा और यदि पहले जमा की गई रकम इस प्रकार अवधारित कुल देय राशि से कम हो तो अन्तर की राशि विनिर्माता से वसूल की जाएगी। तथापि, यदि कुल देय राशि पहले दी गई रकम से कम हो तो अतिशेष विनिर्माता को वापस कर दिया जाएगा।

96 डडड. रोलर लौकर मशीनों की संगणना—जहां रोलर लेकर मशीनें या तो अनन्यतः या किसी अन्य प्रकार के बिजली करघों के अतिरिक्त संस्थापित की जाती हैं वहां ऐसी मशीनों की चौड़ाई के प्रत्येक मीटर की संगणना एक बिजली करघों के रूप में की जाएगी और जहां कुल चौड़ाई पूरे मीटरों से अधिक हो या आधे मीटर से कम अंश को संगणना में नहीं लिया जाएगा और आधे मीटर या उससे अधिक अंश की गणना एक पूरे मीटर के रूप में की जाएगी।

96डडडड विशेष प्रक्रिया के लिए आवेदन करने में असफलता को माफ करने की शक्ति.—इस अनुभाग में किमी 1त के होते हुए भी, कलेक्टर, स्वविवेकानुसार और ऐसी शर्तों पर जो वह अवधारित करे, इस अनुभाग के उपन्धों को उस विनिर्माता को लागू कर सकता है जो विहित समय के भीतर इस अनुभाग में अधिकाधिक विशेष प्रक्रिया का उपयोग करने में या किमी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है।

96डडडडड काम बन्द करने वाले या सामान्य प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ करने वाले कारखानों के बारे में उपबन्ध.—नियम 96अ से 96डडडड तक में किसी बात के होते हुए भी, जिस विनिर्माता ने इस अनुभाग के विशेष उपबन्धों का उपयोग किया है यदि वह काम बन्द कर देता है या सामान्य प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ करता है तो जिस अन्तिम त्रैमास के दौरान उसने विशेष उपबन्धों का उपयोग किया है उनके लिए उनके द्वारा सकाय शुल्क का परिकलन गत त्रैमास के दौरान संस्थापित बिजली करघों की अधिकतम संख्या के आधार पर उतरीति से किया जाएगा जो नियम 96डड में विहित है और जो रकम ऐसे मासों के लिए नियम 96अ के अनुसार पहिले ही संदस्त की जा चुकी है, उसका समायोजन ऐसे परिकलित शुल्क में कर लिया जाएगा और ऐसा समायोजन करने पर यदि अधिक सदाय पाया जाता है तो वह विनिर्माता को वापस कर दिया जाएगा और यदि शुल्क में कोई कमी है तो वह विनिर्माता से वसूल कर ली जायगी।

स्पष्टीकरण.—जो विनिर्माता केवल एक या दो पारियों के लिए कारखाना चलाना बन्द करे, उसके बारे में इस नियम के प्रयोजनार्थ यह नहीं समझा जायगा कि उसने काम बन्द कर दिया।”

G.S.R. 512(E).—In exercise of the powers conferred by rule 96J of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby fixes rupees one hundred as the rate payable per quarter or part thereof in respect of a powerloom installed for the manufacture of unprocessed cotton fabrics, and for the installation and working of which the written permission of the Textile Commissioner has not been obtained.

Explanation.—In this notification, “quarter” means the first, second, third or fourth quarter, as the case may be, of a calendar year

[No. 233/77]

सा०का०नि० 512(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 आ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अप्रसंस्कृत सूती फैब्रिक के विनिर्माण के लिए संस्थापित बिजलीकरवों के सम्बन्ध में, जिनके संस्थापन और कार्यकरण के लिए वस्तु आयुक्त की लिखित अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई हो, प्रत्येक त्रै-मास या उसके भाग के लिए संदेयदर एक सौ रुपए नियत करती है।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना में, “त्रै मास” से कैलेंडर वर्ष के, यथास्थिति, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ त्रै मास अभिप्रेत हैं।

[सं० 233/77]

G.S.R. 513(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:

1. Short title and commencement.—

- (1) These rules may be called the Central Excises (Sixteenth Amendment) Rules, 1977—
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944—

- (a) for the words “rayon or artificial silk fabrics” wherever they occur the words “man-made fabrics” shall be substituted;
- (b) in Chapter V—
 - (i) for the heading “E-1(a) Cotton Fabrics, Jute manufactures and Rayon or Artificial Silk Fabrics”, the heading “E-1(a) Cotton Fabrics, Jute manufactures and Man-made Fabrics” shall be substituted,
 - (ii) rule 96A shall be omitted;
- (c) in sub-rule(2) of rule 173A, after the letter and figure “C-I,” the letter and figures “E-III”, shall be inserted.

3. The omission or amendment of any rule or sub-rule made by rule 2 shall not affect any, thing done or any action taken before such mission or amendment under the rule or sub-rule, as the case may be, so omitted or amended.

[No 234/77]

LAJJA RAM, Dy. Secy.

सा०का०नि० 513(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में और सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —

- (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सौलहवा सशोधन) नियम, 1977 है।
- (2) ये राज पत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में,—

(क) “रेयन या कृत्रिम रेशमी फैब्रिक” शब्दों, जहाँ जहाँ वे आए हैं, के स्थान पर, “कृत्रिम फैब्रिक” शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) अध्याय 5 में,—

(i) “ड-1(क) सूती फैब्रिक, जूट की विनिर्मितियाँ और रेयन का कृत्रिम रेशमी फैब्रिक” शीर्ष के स्थान पर, “ड-1(क) सूती फैब्रिक, जूट की विनिर्मितियाँ और कृत्रिम फैब्रिक ” शीर्ष रखा जाएगा ।

(ii) नियम 96क का लोप किया जाएगा ,

(ग) नियम 173क के उपनियम (2) में, “ग-1” अक्षर और अंक के पश्चात्, “ड-3” अक्षर और अंक अन्त स्थापित किये जायेंगे ।

3. नियम 2 द्वारा किसी नियम या उप-नियम में लोप या संशोधन का कोई प्रभाव इस प्रकार लोप किये गये या संशोधित नियम या उप-नियम के अधीन ऐसे लोप या संशोधन के पूर्व की गई किसी बात या कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा ।

[सं० 234/77]

लज्जाराम, उप सचिव ।

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 15th July, 1977

G.S.R. 514(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance, or Department of Revenue and Banking, as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	237/75-Central Excises, dated the 9th December, 1975.	In the said notification, for the words “from so much of the duty of excise leviable thereon, as is in excess of one hundred and eighty rupees per metric tonne”, the words “from the whole of the duty of excise leviable thereon” shall be substituted;
2.	148/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977	In the second proviso to the said notification, for the words “the duty leviable under this notification shall be reduced by one hundred and fifty rupees per metric tonne”, the words “such ingots shall be exempt from the whole of the duty of excise leviable thereon” shall be substituted;

(1)	(2)	(3)
3. 149/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977	In the second proviso to the said notification, for the words "the duty leviable under this notification shall be reduced by one hundred and fifty rupees per metric tonne", the words "such ingots shall be exempt from the whole of the duty of excise leviable thereon" shall be substituted;	
4. 152/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977.	In the fourth proviso to the said notification, for the words "one hundred and fifty rupees", the words "three hundred and thirty rupees" shall be substituted;	
5. 153/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977.	In the fourth proviso to the said notification, for the words "one hundred and fifty rupees", the words "three hundred and thirty rupees" shall be substituted.	

[No. 235/77]

R. K. CHANDRA, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1977

सांका०नि० 514(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश करती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व और बीमा विभाग अथवा राजस्व और बैंकिंग विभाग की उन अधिसूचनाओं में, जो इससे उपायुक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा या और आगे संशोधन किया जाएगा।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	237/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 दिसम्बर, 1975	उक्त अधिसूचना में "उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग के जितना एक सौ अस्सी रुपए प्रति मीटरी टन से अधिक है" शब्दों के स्थान पर "उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से" शब्द रखे जायेंगे ;

(1)	(2)	(3)
2. 148 77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख, 18 जून, 1977	उक्त अधिसूचना के द्वितीय परन्तुक में “इस अधिसूचना के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क एक सौ पचास रुपए प्रति मीटरी टन की दर से कम कर दिया जाएगा” शब्दों के स्थान पर “ऐसी सिल्लियां उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त होंगी” शब्द रखे जायेंगे।	
3. 149 77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977	उक्त अधिसूचना के द्वितीय परन्तुक में “इस अधिसूचना के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क एक सौ पचास रुपए प्रति मीटरी टन की दर से कम कर दिया जाएगा” शब्दों के स्थान पर “ऐसी सिल्लियां उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त होंगी” शब्द रखे जायेंगे,	
4. 152 77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977	उक्त अधिसूचना के चतुर्थ परन्तुक में “एक सौ पचास रुपए” शब्दों के स्थान पर “तीन सौ तीस रुपए” शब्द रखे जायेंगे ;	
5. 153 77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977	उक्त अधिसूचना के चतुर्थ परन्तुक में “एक सौ पचास रुपए” शब्दों के स्थान पर “तीन सौ तीस रुपए” शब्द रखे जायेंगे।	

[सं० 235/77]

आर० के० चन्द्र, अवर सचिव।

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 15th July, 1977

G.S.R. 515(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No. 170/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, the Central Government hereby exempts lacquered sheets and varnished sheets, including cuttings of lacquered sheets and varnished sheets, falling under sub-item (2) of Item No. 28 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon, subject to the condition that such sheets or cuttings thereof or both are made from steel sheets on which appropriate amount of duty of excise or the additional duty leviable thereon under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, has been paid.

[No. 236/77]

G. K. PILLAI, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1977

सा० का० नि० 515 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 170/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 28 की उपमद (2) के अन्तर्गत सम्मिलित लेकर की हुई या वार्निश की हुई चादरों को, जिनके अन्तर्गत लेकर की हुई और वार्निश की हुई चादरों की कतरनें भी हैं, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट देती है कि ऐसी चादरे, या उनकी कतरनें, अथवा दोनों, ऐसी हस्ता की चादरों से बनाई जाती हैं जिन पर उत्पाद-शुल्क की समुचित रकम या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क संवत्त कर दिया गया है।

[सं० 236/77]

जी० के० पिल्ले, अव्वर सचिव।

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 15th July, 1977

G.S.R. 516(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (8) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts the first twelve prints of each feature film, falling under sub-item II (ii) of Item No. 37 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that for determining the number of prints eligible for exemption under this notification, the number of prints of the said film already cleared prior to the date of publication of this notification in the Official Gazette shall be taken into account

[No. 237/77]

R. K. CHANDRA, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1977

सा० का० नि० 516(अ).—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 37 की उपमद II(ii) के अन्तर्गत सम्मिलित प्रत्येक कथा फिल्म के प्रथम बारह प्रिंटों को, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु इस अधिसूचना के अधीन छूट के पात्र प्रिटो की संख्या का अवधारण करने के लिए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्व पहले ही निकासी की गई उक्त फिल्म के प्रिटो की संख्या को गणना में लिया जाएगा।

[सं० 237/77]

आर० के० चन्द्र, अव्वर सचिव।

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 15th July 1977

G.S.R. 517(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts watches falling under Item No. 44 of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and cleared for home consumption on or after the 1st day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, from the whole of the duty of excise leviable thereon, if an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of the capital investment made from time to time on plant and machinery installed in the industrial unit in which the goods, under clearance, are manufactured is not more than rupees ten lakhs :

Provided that the exemption contained in this notification shall apply only to the first clearances for home consumption by, or on behalf of the manufacturer referred to in this Notification, from one or more factories,—

- (i) upto an aggregate value not exceeding rupees one lakh during a financial year subsequent to 1977-78; and
- (ii) upto an aggregate value not exceeding rupees seventy thousand during the period commencing on the 15th day of July, 1977 and ending on the 31st day of March, 1978.

Explanation.—For the purposes of determining the value of any capital investment only the face value of such investment at the time when such investment was made shall be taken into account.

[No. 238/77]

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1977

सा० का० नि० 517 (घ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 44 के अन्तर्गत सम्मिलित हाथ की घड़ियों को, और गृह उपभोग के लिए जिनकी निकासी किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखाने से, किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन या उसके पश्चात् की जाए, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, यदि ऐसे अधिकारी का, जो रैंक में सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर से कम न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे औद्योगिक एकक में, जिसमें निकासी गत माल का विनिर्माण हुआ, स्थापित सयत्न और मशीन मात्र पर समय-समय पर किया गया पूंजी विनिधान दस लाख रुपये से अधिक नहीं है।

परन्तु इस अधिसूचना में वी गई छूट, इस अधिसूचना में निर्दिष्ट विनिर्माता द्वारा, या उसकी ओर से, एक या अधिक कारखाने से, गृह उपभोग के लिए,—

- (i) वित्तीय वर्ष 1977-78 के पश्चात्पूर्वी किसी वित्तीय वर्ष के दौरान एक लाख रुपये से अनधिक सकल मूल्य तक, और
- (ii) 15 जुलाई, 1977 को प्रारम्भ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान सत्तर हजार रुपये से अनधिक सकल मूल्य तक, की केवल प्रथम निकासियों को लागू होगा।

स्पष्टीकरण.— पूंजी विनिधान के मूल्य को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसा विनिधान के उस समय के केवल अंकित मूल्य को गणना में लिया जाएगा जब ऐसा विनिधान किया गया था।

[सं० 238/77]

G.S.R. 518(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts clocks and timepieces falling under Item No. 44 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and cleared for home consumption on or after the 1st day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, from the whole of the duty of excise leviable thereon, if an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of the capital investment made from time to time on plant and machinery installed in the industrial unit in which the goods, under clearance, are manufactured is not more than rupees ten lakhs :

Provided that the exemption contained in the notification shall apply only to the first clearances for home consumption by, or on behalf of, the manufacturer referred to in this notification, from one or more factories,—

- (i) upto an aggregate value not exceeding rupees five lakhs during a financial year subsequent to 1977-78; and
- (ii) upto an aggregate value not exceeding rupees three lakhs and fifty thousand during the period commencing on the 15th day of July, 1977 and ending on the 31st day of March, 1978.

Explanation.—For the purposes of determining the value of any capital investment, only the face value of such investment at the time when such investment was made shall be taken into account.

[No. 239/77]

सा० का० नि० 518 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 44 के अन्तर्गत सम्मिलित दीवार की और टेबल की घड़ियों को, और गृह उपभोग के लिए जिनकी निकासी किसी विनिर्माता द्वारा, या उसकी ओर से एक या अधिक कारखाने से, किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन या उसके पश्चात् की जाए, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पादन-शुल्क से छूट देती है, यदि ऐसे अधिकारी का, जो रैंक में सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर से कम न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे औद्योगिक एकक में, जिसमें निकासीगत माल का विनिर्माण हुआ है, स्थापित सयंत्र और मशीन मात्र पर समय-समय पर किया गया पूंजी विनिधान दस लाख रुपये से अधिक नहीं है :

परन्तु इस अधिसूचना में दी गई छूट, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट विनिर्माता द्वारा, या उसकी ओर से, एक या अधिक कारखाने से, गृह उपभोग के लिए,—

- (i) वित्तीय वर्ष 1977-78 के पश्चात्पूर्वी किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पाच लाख रुपये से अनधिक सकल मूल्य तक; और
- (ii) 15 जुलाई, 1977 को प्रारम्भ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान तीन लाख पचास हजार रुपये से अनधिक सकल मूल्य तक,

की केवल प्रथम निकासियों को लागू होगी।

स्पष्टीकरण.—पूँजी विनिधान के मूल्य को अवधारित करने के प्रावधानों के लिए, ऐसे विनिधान के उस समय के केवल अंकित मूल्य की गणना में लिया जाएगा, जब ऐसा विनिधान किया गया था।

[सं 239/77]

G.S.R. 519(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts machinery and appliances for determination of weight including parts of weigh-bridges falling under Item No. 45 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and cleared for home consumption on or after the 1st day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, from the whole of the duty of excise leviable thereon, if an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of the capital investment made from time to time on plant and machinery installed in the industrial unit in which the goods, under clearance, are manufactured is not more than rupees ten lakhs :—

Provided that the exemption contained in this notification shall apply only to the first clearances for home consumption by, or on behalf of, the manufacturer referred to in this notification, from one or more factories,—

- (i) upto an aggregate value not exceeding rupees five lakhs during a financial year subsequent to 1977-78, and
- (ii) upto an aggregate value not exceeding rupees three lakhs and fifty thousand during the period commencing on the 15th day of July 1977 and ending on the 31st March, 78.

Explanation —For the purposes of determining the value of any capital investment, only the face value of such investment at the time when such investment was made shall be taken into account.

[No 240/77]

सां कां निं 519 (घ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मव सं० 45 के अन्तर्गत सम्मिलित वजन अवधारित करने की मशीनरी और उपकरण को, जिसके अन्तर्गत बैल्विज के पुर्जे भी हैं, और गृह उपभोग के लिए जिनकी निकासी किसी विनिर्माता द्वारा, या उसकी ओर से एक या अधिक कारखाने से, किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन या उसके पश्चात् की जाए, उन पर उद्ग्रहणीय-समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, यदि ऐसे अधिकारी का, जो रैंक में सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर से कम न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे औद्योगिक एकक में, जिसमें निकासीगत माल का विनिर्माण हुआ है, स्थापित मॉयंत्र और मशीन मात्र पर समय-समय पर किया गया पूँजी विनिधान दस लाख रुपये से अधिक नहीं है।

परन्तु इस अधिसूचना में दी गई छूट, इस अधिसूचना में निर्दिष्ट विनिर्माता द्वारा, या उसकी ओर से, एक या अधिक कारखाने से, गृह उपभोग के लिए,—

(i) तृतीय वर्ष 1977-78 के पश्चातवर्ती किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पांच लाख रुपये से अनधिक सकल मूल्य तक; और

(ii) 15 जुलाई, 1977 को प्रारम्भ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान तीन लाख पचास हजार रुपये से अनधिक सकल मूल्य तक,

की केवल प्रथम निकासियों को लागू होगी ।

स्मृतीकरण—पूँजी विनिधान के मूल्य को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे विनिधान के उस समय के केवल अंकित मूल्य की गणना में लिया जाएगा जब ऐसा विनिधान किया गया था ।

[सं० 240 77]

G.S.R. 520(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No. 172/77-Central Excises dated 18th June, 1977, the Central Government hereby exempts tools, falling under Item No. 51A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and cleared for home consumption on or after the 1st day of April in any financial year by, or on behalf of a manufacturer from one or more factories, from the whole of the duty of excise leviable thereon, if an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of the capital investment made from time to time on plant and machinery installed in the industrial unit in which the goods, under clearance, are manufactured is not more than rupees ten lakhs :

Provided that the exemption contained in this notification shall apply only to the first clearances for home consumption by, or on behalf of, the manufacturer referred to in this notification, from one or more factories,—

- (1) upto an aggregate value not exceeding rupees five lakhs during a financial year subsequent to 1977-78, and
- (11) upto an aggregate value not exceeding rupees three lakhs and fifty thousand during the period commencing on the 15th day of July, 1977 and ending on the 31st day of March, 1978 :

Provided further that after the aforesaid exemption has been availed of, pliers (including cutting pliers), wrenches and screw drivers (excluding ratchet types) falling under sub-item No(i) of the said Item No. 51A shall be eligible for a further exemption—

- (1) upto an aggregate value not exceeding rupees five lakhs in a financial year subsequent to 1977-78; and
- (11) upto an aggregate value not exceeding rupees three lakhs and fifty thousand during the period commencing on the 15th day of July, 1977 and ending on the 31st day of March, 1978.

-Explanation.—For the purposes of determining the value of any capital investment, only the face value of such investment at the time when such investment was made shall be taken into account.

[No. 24/77]

सा० का० नि० 520 (घ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 172/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 51 क के अन्तर्गत सम्मिलित औजारों को, और

गृह उपभोग के लिए जिनकी निकासी किसी विनिर्माता द्वारा, या उसकी ओर से एक या अधिक कारखाने से, किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन या उसके पश्चात् की जाए, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, यदि ऐसे अधिकारी का, जो रैंक में सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर से कम न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे औद्योगिक एकक में, जिसमें निकासीगत माल का विनिर्माणद्वारा है, स्थापित सयंत्र और मशीन माल पर समय-समय पर किया गया पूँजी विनिधान दस लाख रुपये से अधिक नहीं है :

परन्तु इस अधिसूचना में दी गई छूट, इस अधिसूचना में निर्दिष्ट विनिर्माता द्वारा, या उसकी ओर से, एक या अधिक कारखाने से, गृह उपभोग के लिए, —

- (i) वित्तीय वर्ष 1977-78 के पश्चात्पूर्वी किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पांच लाख रुपये से अनधिक सकल मूल्य तक; और
- (ii) 15 जुलाई, 1977 को प्रारम्भ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान तीन लाख पचास हजार रुपये से अनधिक सकल मूल्य तक, की केवल प्रथम निकासियों को लागू होगी .

परन्तु यह और कि उक्त छूट का लाभ उठाने के पश्चात्, उक्त मद सं० 51क की उपमद सं० (.) के अन्तर्गत सम्मिलित प्लायर (जिस के अन्तर्गत काटने वाला प्लायर भी है), रिब और पेंचकस (जिसके अन्तर्गत रैचिट वाला पेचकस नहीं आता),—

- (i) वित्तीय वर्ष 1977-78 के पश्चात्पूर्वी किसी वित्तीय वर्ष में, पांच लाख रुपये से अनधिक सकल मूल्य तक, और
- (ii) 15 जुलाई, 1977 को प्रारम्भ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान तीन लाख पचास हजार रुपये से अनधिक सकल मूल्य तक,

और छूट के पात्र होंगे ।

स्पष्टीकरण.—पूँजी विनिधान के मूल्य को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे विनिधान के उस समय के केवल अंकित मूल्य की गणना में लिया जाएगा जब ऐसा विनिधान किया गया था ।

[सं० 241/77]

G. S. R. 521(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No. 174/77 —Central Excises, dated the 18th June, 1977, the Central Government hereby exempts electric lighting fittings falling under Item No. 61 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and cleared for home consumption on or after the 1st day of April in any financial year by or on behalf of manufacturer from one or more factories from the whole of the duty of excise leviable thereon, if an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of the capital investment made from time to time in plant and machinery installed in the industrial unit in which the goods, under clearance, are manufactured, is not more than rupees ten lakhs .

Provided that the exemption contained in this notification shall apply only to the first clearances for home consumption by, or on behalf of, the manufacturer referred to in this notification, from one or more factories,—

- (i) upto an aggregate value not exceeding rupees ten lakhs during a financial year subsequent to 1977-78, and
- (ii) upto an aggregate value not exceeding rupees seven lakhs during the period commencing on the 15th day of July, 1977 and ending on the 31st day of March, 1978.

Explanation.—For the purposes of determining the value of any capital investment, only the face value of such investment at the time when such investment was made shall be taken into account.

[No. 242/77]

सा० का० नि० 521 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 174/77-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 61 के अन्तर्गत सम्मिलित विद्युत प्रकाश किटिंगों को, और गृह उपभोग के लिए जिनकी निकासी किसी विनिर्माता द्वारा, या उसकी ओर से एक या अधिक कारखाने से, किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन या उसके पश्चात् की जाए, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, यदि ऐसे अधिकारी का, जो रैक में सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क क्लर्क से कम न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे औद्योगिक एकक में, जिसमें निकासीगत माल का विनिर्माण हुआ है, स्थापित संयंत्र और मशीन मात्र पर समय-समय पर किया गया पूंजी विनिधान दस लाख रुपए से अधिक नहीं है :

परन्तु इस अधिसूचना में दी गई छूट, इस अधिसूचना में निर्दिष्ट विनिर्माता द्वारा; या उसकी ओर से, एक या अधिक कारखाने से गृह उपभोग के लिए, —

- (i) वित्तीय वर्ष 1977-78 के पश्चात्पूर्ति किसी वित्तीय वर्ष के दौरान दस लाख रुपए से अनधिक सकल मूल्य तक ; और .
- (ii) 15 जुलाई, 1977 को प्रारम्भ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान सात लाख रुपए से अनधिक सकल मूल्य तक, की केवल प्रथम निकासियों को लागू होगी ।

स्पष्टीकरण.—पूंजी विनिधान के मूल्य को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे विनिधान के उस समय के केवल अंकित मूल्य को गणना में लिया जाएगा जब ऐसा विनिधान किया गया था ।

[सं० 242/77]

G.S.R. 522(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) or Department of Revenue and Banking, as the case may be, No. 117/75—Central Excises, dated the 30th April, 1975 and No. 180/77—Central Excises, dated the 18th June, 1977, the Central Government hereby exempts newspapers and all other printed periodicals falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and cleared for home consumption from the whole of the duty of excise leviable thereon provided that the average circulation of each such newspaper or, as the case may be, periodical, in the preceding calendar year was not did not exceed 50,000 copies per publishing day.

Explanation.—In this notification, "average circulation", in relation to a newspaper or, as the case may be, a printed periodical means the average number of copies sold and includes copies distributed free per publishing day, calculated on the basis of the total number of days of publication during the preceding calendar year.

[No. 243/77]

सां० कां० नि० 522 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) या राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 117/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1975, तथा अधिसूचना सं० 180/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत सम्मिलित समाचारपत्रों तथा सभी अन्य मुद्रित सावधिक पत्रों को और जिनकी निकासी गृह उपयोग के लिए की जाए, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट देती है कि, यथा स्थिति ऐसे समाचार पत्र या सावधिक पत्र में से प्रत्येक का औसत परिचालन पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष में शून्य या अधिक प्रत्येक प्रकाशन दिन पचास हजार प्रतियों से अधिक नहीं था।

व्याख्याकरण—इस अधिसूचना में, यथा स्थिति, किसी समाचारपत्र या मुद्रित सावधिक पत्र के सम्बन्ध में, "औसत परिचालन" से विक्रय की गई प्रतियों की औसत संख्या अभिप्रेत है, जिनकी गणना पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष के दौरान प्रकाशन के कुल दिनों की संख्या के आधार पर की गई हो, और इसके अन्तर्गत प्रति प्रकाशन दिन पर मुक्त वितरित की गई प्रतियां भी हैं।

[सं० 243/77]

G.S.R. 523(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts utensils made of aluminium, falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[N. 244/77]

सां० कां० नि० 523 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत सम्मिलित एल्युमिनियम के बने बर्तनों को, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[सं० 244/77]

G.S.R. 524(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 175/77—Central Excises, dated the 18th June, 1977, the Central Government hereby exempts newspapers and all other printed periodicals, falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and to which the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 243/77—Central Excises, dated the 15th July 1977, does not apply, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of one per cent. *ad valorem*.

[N. 245/77]

सां० कां० नि० 524 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 175/77—केन्द्रीय उत्पाद, शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम-1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत सम्मिलित समाचार पत्रों और सभी अन्य मुद्रित सावधिक पत्रों को, तथा जिन्हें भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 243/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जुलाई,

1977 लागू नहीं होती है, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक है।

[सं० 245/77]

G.S.R. 525(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 176/77—Central Excises, dated the 18th June, 1977, namely :—

In the said notification, the *Explanation* shall be numbered as *Explanation I* and after *Explanation I* as so numbered, the following *Explanation* shall be inserted, namely :—

“*Explanation II.*—For the purposes of determining the value of clearances under this notification, the value of goods cleared for captive consumption within the factory in which the goods are manufactured shall not be taken into account.”

[No. 246/77]

G. K. PILLAI, Under Secy

सं० का० नि० 525 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 176/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्न लिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 2.—इस अधिसूचना के अधीन निकासियों के मूल्य को अवधारित करने के प्रयोजन हेतु उक्त कारखाने के भीतर, जिसमें माल का विनिर्माण किया गया है, स्वछप-भोग के लिए निकासी किए गए माल का मूल्य गणना में नहीं लिया जाएगा।

[सं० 246/77]

जी० के० पिल्लै, अवसर सचिव।

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 15th July, 1977

G.S.R. 526(E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 166/77—Central Excises, dated the 18th June, 1977.

[No. 249/77]

R. K. CHANDRA, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1977

सा० का० नि० 526 (प्र).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 166, 77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को विज्ञापित करती है।

[सं० 249/77]

प्रार० के० चन्द्र, सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टा रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

